



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5—अगस्त 11, 2006 (श्रावण 14, 1928)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5—AUGUST 11, 2006 (SRAVANA 14, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जुलाई 2006

सं. एफ15/28/2004/जीएन-5687/एन-I.--श्री मुरारी जे. बिस्सा, जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंध समिति के सभापति (श्री रतिलाल कालीदास वर्मा) के निजी स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में सहविस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, का 3 जुलाई 2006 को दुखद निधन हो जाने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 3 जुलाई, 2006 से समाप्त की जाती हैं।

जे.पी. शर्मा, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जुलाई 2006

सं. 4/(ii)/आरसीसी/04.--श्री सरताज सिंह छतवाल, सदस्य, लोक सभा को, श्री बाबू लाल मरांडी, संसद सदस्य, द्वारा 22 मई, 2006 को लोक सभा से त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, 21 जुलाई, 2006 से सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त के संबंध में रेलवे उपक्रम द्वारा

सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने संबंधी संसदीय समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है।

ओ.पी. शोकीन, अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जुलाई 2006

सं. 14/2एनसीएसटी/2006-प्रशा.I.--राष्ट्रपति, श्री के.के. गुप्ता, आई. एफ.ओ.एस (एचपी-71) को, भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक और वेतन में, दिनांक 1-7-2006 से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में, सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

काशी नाथ सिंह, संयुक्त सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर, दिनांक 28 जून 2006

सं. 10/2/1/2005-V.--अन्तरिक्ष विभाग के दिनांक 5 सितम्बर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के अतिक्रमण में अन्तरिक्ष विभाग के निम्नलिखित

अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किये जाते हैं :--

क्र. सं.	नाम व विभाग का पता	सहा.लो.सू.अ. का नाम, पदनाम व पता, दूरभाष/फैक्स सं. ई-मेल आई.डी.
1	2	3
1.	विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र इसरो पोस्ट, तिरुवनन्तपुरम पिन-695022 इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट वट्टियूरकावु पोस्ट तिरुवनन्तपुरम पिन-695022	श्री के.बी. संजयन वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई. टीडीएडी दू: 0471-2564818 फैक्स : 0471-2564134 ई-मेल: kb_sanjayan@vssc.org
2.	द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र वलियामला पोस्ट तिरुवनन्तपुरम पिन-695022	श्रीमती ए.जी. सरस्वती अम्मा वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दू: 0471-2567599/2567299 फैक्स: 0471-2567966 ई-मेल : ag_saraswathyamma@lpsec.gov.in
3.	सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार श्रीहरिकोटा रेंज पो. -524124, नेल्लूर जिला आन्ध्र प्रदेश	श्री सी. रवीन्द्रनाथ प्रचार व प्रकाशन अधिकारी व प्रधान, पुस्तकालय एवं प्रलेखन सुविधा दू: 08623-245183 फैक्स: 08623-245056 ई-मेल: library@shar.gov.in
4.	अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र अंबावाडी विस्तार पोस्ट जोधपुर टेकरा अहमदाबाद-380015 विकास व शैक्षिक संचार यूनिट अंबावाडी विस्तार पोस्ट जोधपुर टेकरा अहमदाबाद-380015	श्री के. एस. शशिधरन, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दू: 079-26912021 फैक्स: 079-26915801 ई-मेल: sasi@sac.isro.gov.in
5.	इसरो उपग्रह केन्द्र पो.बा.सं. 1795 एयरपोर्ट रोड विमानपुरा पोस्ट बेंगलूर-560017 इलेक्ट्रो प्रकाशिकी प्रणाली प्रयोगशाला 1 फेस, 1 क्रास पीण्या इण्डस्ट्रियल एस्टेट बेंगलूर-560058	श्री ए.एन. नारायण प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन दू: 080-25205285 फैक्स: 080-25084103 ई-मेल: narayan@isac.gov.in
6.	मुख्य नियंत्रण सुविधा अन्तरिक्ष विभाग पो.बा.सं.66, सालगामे रोड, हासन-573201	श्री एस.एन. रामकृष्ण वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दू: 08172-239020 फैक्स: 08172-239025 ई-मेल: snr_mcf@yahoo.com
7.	इसरो दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल प्लाट सं. 12 व 13, 3 मैन, 2 फेस, पीण्या इण्डस्ट्रियल एस्टेट, बेंगलूर-560058	श्री के.जी. पद्मनाभन वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दू: 080-28094525/28376381 (का.) फैक्स: 080-28094032 ई-मेल: padmanabhan@istrac.gov.in
8.	अन्तरिक्ष विभाग सचिवालय इसरो मुख्यालय सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग अन्तरिक्ष भवन न्यू बी.ई.एल. रोड बेंगलूर-560094	श्री बी.आर. गुरुप्रसाद लो.सं.अ., प्र.व.लो.सं. यूनिट, दू: 080-22172295 फैक्स: 080-23412253 ई-मेल: gurubr.isro.gov.in

1	2	3
9.	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी बालानगर, हैदराबाद-500037	श्री के.वाई. यज्ञरामन, वैज्ञानिक 'एस.एफ' प्रबन्धक, वजेट प्रबन्धन दू: 040-23884014 फैक्स: 040-23884013 ई-मेल: yagnaraman_k@nrsa.gov.in
10.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला नवरंगपुरा अहमदाबाद-380009	मिस वी. लीला अय्यर सहा.प्रशासन अधिकारी दू: 079-26314205 फैक्स: 079-26314900 ई-मेल: leela@prl.ernet.in
11.	राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, अन्तरिक्ष विभाग पो.बा.सं. 123, तिरुपती-517502	श्री वी. शेखरन प्रशासन अधिकारी दू: 08585-272020/222450 फैक्स: 085485-272018/272021 ई-मेल: admin_narl@narl.gov.in
12.	उत्तर पूर्वी अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र अन्तरिक्ष विभाग, उमियाम-793103 मेघालय	श्री बिर्जो कृष्ण हैण्डीक वैज्ञानिक/अभियंता 'एस.सी.' दू: 0364-2570137/2570769 फैक्स : 0364-2570139 ई-मेल: bkhandique@Rediffmail.com
13.	सेमि कण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड सेक्टर-72 एस.ए.एस.नगर-460071 चंडीगढ़ के पास पंजाब	श्री विवेक ट्रेहन कंपनी सचिव दू: 0172-2237401-410 फैक्स: 0172-2236378/2236885 ई-मेल: trehan@scclhd.co.in

बी.एस. अनन्तरामु, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2006

सं.ए-12025/01/2005प्रशा.II.--राष्ट्रपति, योजना आयोग में निम्नलिखित अधिकारियों को अनुसंधान अधिकारी के रूप में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तारीखों से एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं:-

क्रम संख्या	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री दीपा. एन मोधधरे, आर्थिक अधिकारी, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, मुम्बई	12.06.2006 (पूर्वाह)
2.	डा. एस.के. गुप्ता, सहायक निदेशक II (आर्थिक अन्वेषण), विकास आयुक्त (लघु उद्योग)	12.06.2006 (अपराह)

आर.के. परमार, अवर सचिव

दिनांक 27 जून 2006

सं. ए-12025/1/2006प्रशा.II.--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, के सी.एस.ओ. में सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड IV, श्री अरूण कुमार दुबे को योजना आयोग में आर्थिक अधिकारी के रूप में

6,500—10,500/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 27.06.2006(पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

आर.के. परमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2006

सं. ए-12022/3/2005-प्रशा.IV.--राष्ट्रपति, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर में आर्थिक अधिकारी, श्री एन.सी. सामल को योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर में समूह 'क'(राजपत्रित), भारतीय आर्थिक सेवा से संबद्ध एक कैडर पद, अनुसंधान अधिकारी के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 26 जून, 2006 से आयोग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में निहित नियम एवं शर्तों पर दिनांक 28 जून, 2006 की पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2006

सं. एफ.6(1551)/92-प्रशासन-1.--मेघालय सरकार में उनकी एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित होने पर, आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में निदेशक श्री डब्ल्यू. सिनरेम को दिनांक 21-07-2006 (अपराह्न) से योजना से कार्यमुक्त किया जाता है।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. 12016/7/2004-एस. एस. एस.--सक्षम प्राधिकारी, अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह 'ख' राजपत्रित) नियमावली 2002 के नियम 9 के तहत निम्नलिखित विभागीय अभ्यर्थियों को सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II(6500—10,500/- रु. के वेतनमान में) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण तिथि
1	2	3	4
		श्री/श्रीमती	
1.	1723	जी. बी. गजभ्या	17.06.2005
2.	1740	जे.एल. खुम्बकर	24.06.2005
3.	1931	एस. के. चतुर्वेदी	11.07.2005
4.	2061	बी.आर. गेदम	20.05.2006
5.	2721	आर.जी. मीणा	01.07.2005
6.	2766	बीरेन्द्र सिंह	20.06.2005

1	2	3	4
7.	2787	प्रभ हनु गजभ्ये	12.09.2005
8.	2788	एस.एम. थोमके	28.06.2005
9.	2789	जी.डी. नायर	29.07.2005
10.	2790	के.टी. वांकर	20.06.2005
11.	2791	बी.के. शुखिबैद्य	24.06.2005
12.	2792	करन सिंह	01.07.2005
13.	2793	वीरेन्द्र सिंह	01.07.2005
14.	2794	नील कमल सरकार	10.06.2005
15.	2795	श्री नारायण रबिदास	20.06.2005
16.	2796	हरेन्द्रनाथ दास	09.06.2005
17.	2797	सनातन ठाकुरिया	09.06.2005
18.	2799	पी.एस. मौर्य	13.06.2005
19.	2800	दया राम	17.10.2005
20.	2801	डाबा शेरिंग भूटिया	15.06.2005
21.	2802	तार शेरिंग लेपचा	16.06.2005
22.	2803	बेनुधर नारजरी	12.12.2005
23.	2804	एम.क्यू. खान	11.07.2005
24.	2805	भीमेश्वर टी. राव	22.09.2005
25.	2806	टी. राधाकृष्णन	20.12.2005
26.	2807	के.बी. प्रभाकरन	19.09.2005
27.	2808	जी.सी. शाह	13.10.2005
28.	2809	ए. वी. काखांडिकी	17.10.2005
29.	2810	पी.एम. उदंकर	13.10.2005
30.	2811	सोवेन्द्र भौमिक	15.07.2005
31.	2813	लाला जुगल प्रसाद रॉय	11.07.2005
32.	2814	सुखांत कुमार जेना	13.07.2005
33.	2815	आजाद सिंह	01.06.2005
34.	2816	पी. के. हुडा	01.06.2005
35.	2817	नरेश कुमार	24.06.2005
36.	2818	शिवरामाकृष्णन आर.	16.06.2005
37.	2819	के.के. रामाचंद्रन्	09.01.2006
38.	2820	सुकुमार मिश्रा	31.03.2005
39.	2821	यू. शंकर चक्रवर्ती	15.07.2005

1	2	3	4
40.	2822	ए.टी. देसाई	01.09.2005
41.	2823	अंगद जी. सुखासे	29.09.2005
42.	2825	एन.एस. मुह. एफ. अब्दुल साधर	17.06.2005
43.	2826	जी.एस. बिष्ट	01.07.2005
44.	2827	एस.आर. सचन	15.07.2005
45.	2828	एस.सी. त्रिपाठी	29.09.2005
46.	2829	ए.आर. लिम्बाद	17.06.2005
47.	2830	सी.डी. यादव	05.10.2005
48.	2831	एन.सी. बैद्य	27.06.2005
49.	2833	श्रीमती रीता कालिता	07.06.2005
50.	2834	श्रीमती एस. पुरकायस्था	06.10.2005
51.	2847	कुसुम कु. बरूआ	11.08.2005
52.	2848	सुधेन्दु कुमार साहा	01.07.2005
53.	2849	रंजीत कुमार दास	01.06.2005
54.	2850	जगबीर सिंह	01.07.2005
55.	2851	देवासहायम् बी.	11.07.2005
56.	2852	एम.एम. डाडीकोप्पा	01.06.2005
57.	2853	एस.डी. मीणा	05.10.2005
58.	2854	डी.आर. राजवाड़ी	19.07.2005
59.	2855	बी. करिबासप्पा	01.06.2005
60.	2857	एस.जी. मीणा	11.10.2005
61.	2859	भोराज अमृत देशपांडे	11.07.2005
62.	2884	डी.वी. हनुमन्था रायप्पा	01.06.2005

ए.के. सक्सेना, संयुक्त सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2006

सं. ए. 38012/2/2005-प्रशा.-I (वि.वि.):--विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर कार्यरत श्री एन. के. अम्बष्ट अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30 जून, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. रविन्द्रन, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए. 12025(I)/3/2004-प्रशा.-I (वि.वि.):--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री के. श्रीमन्नारायण को, 10 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री के. श्रीमन्नारायण 10 जुलाई, 2006 से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

वी. रविन्द्रन, अवर सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. ए. 32014/2/2006-प्रशा.-IV (वि.का.):--संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2004 के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.06.2006 के का. ज्ञा. सं. 6/3/2006-सी.एस.1 के तहत नामांकन होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग) के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक, श्री कैकम डाउंगल (रैंक सं. 326) को वर्ष 2004 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करते हुए, दिनांक 26 जून 2006 के पूर्वाह्न से विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

वी.जी. मंगल, अवर सचिव

सं. ए. 32014/2/2006-प्रशा.-IV (वि.का.):--संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2004 के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.06.2006 के का. ज्ञा. सं. 6/3/2006-सी.एस.1 के तहत नामांकन होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, दूरसंचार मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक, श्री किशोर कुमार (रैंक सं. 189) को वर्ष 2004 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करते हुए, दिनांक 29 जून 2006 के पूर्वाह्न से विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

वी.जी. मंगल, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. के. 11019/3/2006-यू.एस.1:--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री क्षितिज रमेशभाई व्यास के सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण, बम्बई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायविद् श्री विश्वनाथ गोपाल पलशीकर को दिनांक 19 जुलाई, 2006 से बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

(डॉ.) पी.के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जुलाई 2006

सं. 14016/23/2004-यू.टी.एस. II:--संयुक्त सचिव (यू.टी.), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस में निरीक्षक श्री कपूर सिंह (डी-1/607) को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्रीमती सुषमा सोढी की पदोन्नति की तारीख अर्थात् 21 सितम्बर, 2005 से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

रजनीश तिगल, अवर सचिव

कार्यालय: प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. डी-III/460/सी.एफ.-53/2004.--भारत के राष्ट्रपति ने श्री प्रदीप खेमका की कोलकता में ब्राजील संघ गणराज्य के अवैतनिक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री प्रदीप खेमका को कौंसली क्षेत्राधिकार में पूरे पश्चिम बंगाल, असम त्रिपुरा और मेघालय राज्य होंगे।

शाम के. मुडगिल, प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. डी-III/460/सी.एफ.-7/2006.--भारत के राष्ट्रपति ने श्री मानोप मेकप्रयूनथोंग की कोलकता में थाई शाही सरकार के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री मानोप मेकप्रयूनथोंग का कौंसली क्षेत्राधिकार में होगा : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का संघ शासित प्रदेश।

शाम के. मुडगिल, प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

दिनांक 13 जुलाई 2006

सं. डी-III/460/सी.एफ.-17/2006.--भारत के राष्ट्रपति ने श्री अजीत सिंह की चेन्नई में सिंगापुर गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री अजीत सिंह के कौंसली क्षेत्राधिकार में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू और संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी होंगे।

शाम के. मुडगिल, प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2006

आयकर संस्थापना

सं. 11(फा.सं.ए-39011/1/2005-प्रशा. VI)--राष्ट्रपति जी, श्री रणदीप डी. भारतीय राजस्व सेवा (पी) का भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) से तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 13.12.2005 से स्वीकार करते हैं।

राहुल कश्यप, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. ए. 12011/03/2006-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, व्यय विभाग के दिनांक 16.08.2006 और 27.06.2006 के का.ज्ञा. सं.-32014/2/2005-सीएस के अनुसरण में और संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2004 के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे लिखी तारीख से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में केंद्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रैंक संख्या	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस.आर. राजा	166	28.06.2006(पूर्वाह्न)
2.	सुश्री ललितसिया गोम्स	214	30.06.2006(पूर्वाह्न)
3.	श्री विजय कुमार	327	03.07.2006(अपराह्न)
	(अनुसूचित जाति)		

नीलम बोहरा, अवर सचिव

सं. ए. 12011/09/2006-प्रशा.-II--व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 30.06.2006 के का.ज्ञा.सं. 12026/2/2006-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति वित्त संवर्ग के केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफरों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में, 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में दिनांक 30.06.2006 (पूर्वाह्न) से और 31.12.2006 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर केंद्रीय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) के स्टेनोग्राफर ग्रेड 'ए और बी' (सम्मिलित) के ग्रेड में (निजी सचिव के रूप में पदनामित) नियुक्त करते हैं :--

1. श्री अनिल कुमार मिश्रा
2. श्रीमती नीरजा जयरामन
3. श्रीमती सरला अजबानी
4. श्री योगेश कुमार

2. उपर्युक्त ग्रेड सी स्टेनोग्राफरों की स्टेनोग्राफर ग्रेड 'ए और बी' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) में तदर्थ नियुक्ति निम्नांकित निबंधन और शर्तों के अधीन होगी :--

(क) तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेड में असीमित काल तक बने रहने या सीएसएसएस के ग्रेड 'ए और बी' (सम्मिलित) (निजी सचिव) हेतु नियमित नियुक्ति के लिए चयनसूची में नाम शामिल होने अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ख) तदर्थ नियुक्तियों को कभी भी बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2006

शुद्धि-पत्र

सं. ए. 12011/02/2006-प्रशा.-II--वित्त राज्यमंत्री (व्यय, बैंकिंग और बीमा) (श्री पी. के. बंसल) की विशेष कार्याधिकारी और अपर निजी सचिव (अवर सचिव स्तर) के रूप में डा. अनु अग्रवाल, भा.प्र.से. (नागालैण्ड : 2001) की नियुक्ति से संबंधित 30 जून, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा 1 की अंतिम पंक्ति में उल्लिखित वेतनमान को "10,000-325-15,200/- रुपए" के स्थान पर "10,650-325-15,850/- रुपए" पढ़ा जाए।

2. अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2006

सं. ए. 19011/8/2005-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप सचिव श्री संजय कुमार, भा.प्र.से. (नागालैण्ड : 92) को दिनांक 5 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से दिनांक 29.5.2010 तक उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनके लिए वैयक्तिक पदोन्नति के रूप में इसी विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

सं. ए. 19011/16/2005-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बिहार : 92) को दिनांक 5 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से दिनांक 17.10.2010 तक उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनके लिए वैयक्तिक पदोन्नति के रूप में इसी विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. ए. 19012/7/2006-प्रशा.-Iए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के एक अकार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) स्तर के अधिकारी

श्री वी. लखनपाल (आईईएस : 83) को 30 जून, 2006 के अपराह्न से और अगले आदेश तक 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक (आईईएस) नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. ए. 19012/8/2006-प्रशा.-I ए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के एक अकार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) स्तर के अधिकारी श्रीमती शीला प्रसाद (आईईएस : 83) को 30 जून, 2006 के अपराह्न से और अगले आदेश तक 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अपर आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए-15012/1/2005-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित, धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने श्री किरनलाल पन्नालाल कोटेचा, संयुक्त जिला जज, औरंगाबाद, को 12 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी 62 वर्ष की आयु होने तक, अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, मुम्बई, के पद पर नियुक्त किया है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2006

सं. 18/4/2004-डीआरटी--श्री रवि कुमार माथुर, आरएचजेएस, प्रतिनियुक्ति पर पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली की सेवाएं तुरंत प्रभाव से, राजस्थान उच्च न्यायालय को वापस सौंपी जाती हैं।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2006

शुद्धि-पत्र

सं. ए-18/4/2004-डीआरटी--श्री रवि कुमार माथुर, आरएचजेएस, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के संबंध में दिनांक 20 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. 18/4/2004-डीआरटी में, द्वितीय पंक्ति में, "प्रतिनियुक्ति" के स्थान पर "कार्यकाल आधार" पढ़ा जाए।

ए. थॉमस, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2006

सं. ए. 12026/3/2004/प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्री जितेन्द्र आर. गायकवाड़ को नियमित आधार पर 11 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

ये अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा द्वारा निर्धारित नियमों के तहत 11 जुलाई, 2006 से 2 वर्ष की अवधि तक के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

मीताली घोष, अवर सचिव

(विनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जुलाई 2006

सं. 9/5/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 जून 2006 के का.ज्ञा. सं. 18/8/2006-स्था. का. (एमएम-1) के अनुसरण में, सुश्री परमा सेन, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (94) को 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में विनिवेश विभाग में उप सचिव के पद पर 18 जुलाई 2006 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2006

सं. 21/2006 (ए-19011/9/2006-स्था. I)--राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में वर्तमान में निदेशक पद पर कार्यरत श्री आई. सी. पी. केशरी, भा.प्र.से. (म.प्र. : 88) को दिनांक 4 जुलाई, 2006 से निदेशक स्तर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना छोड़ देने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के निजी सचिव के रूप में पांच वर्ष की अवधि मंत्री जी के निजी सचिव के लिए यथा स्वीकार्य सात वर्ष के संयुक्त कार्यकाल में शामिल है। उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल की गणना दिनांक 30.03.2006 से की जाएगी।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

अवर सचिव श्री डी. विजयन पिल्लै को दिनांक 3 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में चयन ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित के अधधीन है :--

I. तदर्थ पदोन्नति से उक्त ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

II. तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2006

सं. ए-19011/608/2001-व्य-1--श्री उमेश कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान : 83), का बढ़ा हुआ कार्यकाल पूरा हो जाने के फलस्वरूप, ने 11 मई 2006 अपराह्न से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, में संयुक्त सचिव का कार्यभार छोड़ दिया है।

श्री उमेश कुमार, संयुक्त सचिव को 12 मई, 2006 से 31 मई, 2006 तक (20 दिन) की अवधि का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है। अर्जित अवकाश की समाप्ति पर श्री उमेश कुमार की सेवाएं उनके मूल केडर अर्थात् राजस्थान सरकार को सौंपी जाती हैं।

ज. ज. कौर, अवर सचिव

दिनांक 15 मई 2006

सं. ए-12022/02/2005-व्य-1--राष्ट्रपति, श्री गोपाल कृष्ण, आई ए एस (पश्चिम बंगाल : 83) को दिनांक 15 मई, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ज. ज. कौर, अवर सचिव

दिनांक 19 जून 2006

संख्या ए-45011/2-2006/व्य.-1--राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के सीएसएसएस केडर के निम्नलिखित ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को उनके प्रत्येक के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर उसी केडर में निजी सचिव (ग्रेड 'ए' और 'बी' समामेलित) नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	अवधि	
		से	तक
	सर्व/श्री		
1.	श्रीमति रामा वैकटारमन	27.06.2006	31.12.2006
2.	राकेश	--वही--	--वही--
3.	चंचल घोष	02.07.2006	--वही--
4.	बी. जय कुमार	04.07.2006	--वही--
5.	लेख राज	27.06.2006	--वही--

2. इस तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने, अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में नाम शामिल करने अथवा ग्रेड ए तथा बी (समामेलित) सीएसएसएस के निजी सचिव की सूची में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इन तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये समाप्त किया जा सकता है जो आगे कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006-सीएस 2 दिनांक 31 मई, 2006 में दी गई शर्तों के भी अधधीन है।

ज.ज. कौर, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2006

सं. ए-19012/909/93-व्य.-I--राष्ट्रपति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नियमित अनुभाग अधिकारी श्री ओ.पी. शर्मा को अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर दिनांक 30 जून, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

ज.ज. कौर, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए-22012/1/2005-व्य.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिवों को 01 जुलाई, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 तक अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर 12,000—16,500/- रुपये के वेतनमान में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

1. श्री एल. एन बजाज
2. श्री रतन सिंह
3. श्री शिव शंकर

2. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और उन्हें अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा सी एस एस एस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ज.ज. कौर, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2006

सं. ए-12023/7/2004-व्य.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के वरिष्ठ अनुवादक (राजभाषा) श्री कृष्ण लाल को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में 1 जून, 2006 से छः महीनों के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले होगा, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर उक्त अधिकारी की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे अधिकारी को उक्त पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

ज.ज. कौर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. 8(7)/2005-आईपीआर-1 (आईपीएबी)--राष्ट्रपति, सुश्री एस. ऊषा को दिनांक 16 जून, 2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा सुश्री एस. ऊषा द्वारा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, चेन्नई में तकनीकी सदस्य नियुक्त करते हैं।

बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में तकनीकी सदस्य के रूप में सुश्री एस. ऊषा को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें जिनके द्वारा वह प्रशासित होंगी समय-समय पर यथा संशोधित "बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2003" के अनुसार होंगे।

एम.एस. धाकड़, निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2006

सं. ए-19011/14/2005-स्थापना.--राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, श्री एस. के. डांग की 12,000—16,500/- रुपए के वेतनमान की तदर्थ पदोन्नति को तदर्थ आधार पर 31.12.2006 तक अथवा जब तक नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव उपलब्ध नहीं हो जाते अथवा अगले आदेश किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं। यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 19 जून 2006 के कार्यालय आदेश सं. 5/20/2005-सीएस.2 की शर्तों पर है।

2. श्री एस. के. डांग की नियुक्ति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर की जा रही है तथा यह तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त किए गए व्यक्ति को इस पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के वर्ग में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2006

सं. ए-12011/11/2006-स्थापना.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.5.2006 के का. ज्ञा. संख्या 5/8/2006-सी एस II के अनुसरण में राष्ट्रपति, दूर संचार विभाग के संवर्ग में धारित के. स. आ. से. के आशुलिपिक श्रेणी "ग", श्री भोज सिंह को 31.12.2006 तक की अवधि के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 30 जून, 2006 के अपराह्न से 6500-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इसके फलस्वरूप उक्त श्रेणी में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा इस श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

सं. ए-12011/11/2006-स्थापना.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. संख्या 5/8/2006-सी एस II के अनुसरण में राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग में धारित के. स. आ. से. के आशुलिपिक श्रेणी "ग", श्री पी. आई. एस. माणिकतला को 31.12.2006 तक की अवधि के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 30 जून, 2006 के अपराह्न से 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इसके फलस्वरूप उक्त श्रेणी में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा इस श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 06 जुलाई 2006

सं. ए-12011/7/2004-मा.सं.-II--राष्ट्रपति, श्री माणिक मुखर्जी, सहायक निदेशक (लागत) को उर्वरक विभाग के नई दिल्ली स्थित उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय में रु. 10000-325-15200/- के वेतनमान में दिनांक 5.7.2006, अपराह्न से अगले आदेश तक 3 वर्ष के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्त आधार पर उप निदेशक (लागत मूल्यांकन) नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

सं. ए-32011/2006-मा. सं.-II-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 22.5.2006 के का.ज्ञा.संख्या 5121/2005-के.स. II द्वारा नामांकन होने के परिणामस्वरूप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में कार्यरत श्री सुधीर सूरि

2-182 GI/2006

को उर्वरक विभाग और रसायन एवं पेट्रोलियम विभाग के संयुक्त संवर्ग में दिनांक 3.7.2006, अपराह्न से रु. 10000-15200 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सुधीर सूरि को एनपीपीए कार्यालय में तैनाती के लिए रसायन एवं पेट्रोलियम विभाग में स्थानान्तरित किया जाता है।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2006

सं. ए-32015/1/98-प्रशासन--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.5.2006 के का. ज्ञा. संख्या 5/8/2006-सी एस II के अनुसरण में राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की स्थायी स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी" (वैयक्तिक सहायक), श्रीमती अंजना कालरा को कोयला मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के स्टेनोग्राफर ग्रेड "ए तथा बी" (विलय) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) में 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 19 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से 31.12.2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की जा रही है और उक्त इस ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएसएस के ग्रेड "ए" तथा "बी" (विलय) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति को बिना कारण बताए किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2006

सं. 12/17/2003-ए.एस.ओ.--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप कुमार, भा.प्र.से. (हरियाणा: 72) को उनके द्वारा धारित अपर सचिव के पद का अस्थायी रूप से उन्नयन करके उन्हें 24 जुलाई, 2006 (पूर्वाह्न) से तीन महीने की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 26,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में कोयला मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच.सी. अग्रवाल, निदेशक

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं.2(12)/2002-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2003 के लिए इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में शामिल करने हेतु नामित किए जाने पर राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री एस. बी. तिवारी को दिनांक 5.07.2006 से अगले आदेशों तक उपर्युक्त चयन सूची में

शामिल करते हैं। उन्हें इसी तारीख से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

बाबू राम, अवर सचिव

14 जुलाई 2006

सं. 2(12)/2002-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2003 के लिए इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में शामिल करने हेतु नामित किए जाने पर राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री एस. बी. तिवारी को दिनांक 6.07.2006 से अगले आदेशों तक उपर्युक्त चयन सूची में शामिल करते हैं। उन्हें इसी तारीख से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

बाबू राम, अवर सचिव

सं. 5(7)2005-स्थापना--वित्त विभाग द्वारा विकास आयुक्त (एसएसआई) के कार्यालय में अतिरिक्त विकास आयुक्त के रूप में नामित किए जाने पर इस्पात मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार श्री पी. के. पाथी, आईईएस (1975) को दिनांक 14.07.2006 अपराह्न से एतद्वारा कार्यमुक्त किया जाता है। तदनुसार उनकी सेवाएं इसी तारीख से विकास आयुक्त (एसएसआई), नई दिल्ली के कार्यालय को सुपुर्द की जाती हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. 5(8)/2001--स्थापना मंत्रालय में निदेशक श्री दीपक अनुराग, आईए एंड एस (1988) को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण हो जाने पर दिनांक 17.7.2006 पूर्वाह्न से एतद्वारा कार्यमुक्त किया जाता है। तदनुसार उनकी सेवाएं इसी तारीख से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय को सुपुर्द की जाती हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

सं. 5(15)/2006--स्थापना आर्थिक कार्य विभाग द्वारा नामित किए जाने पर राष्ट्रपति, श्रीमती चन्द्रलेखा मालवीय, आईईएस को दिनांक 17.07.2006 अपराह्न से अगले आदेशों तक इस्पात मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2006

सं. ए-42011(1)/2004-स्था. (भाग)--राष्ट्रपति, श्री एस. वी. रमना मूर्ति, भा.सा.से(85) को, आयोग में उनके द्वारा वर्तमान में धारित किए

जा रहे उप-सचिव के पद को पुनर्दिजाइन/उन्नयन करते हुए, लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन असंगठित क्षेत्र में उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग में निदेशक के रूप में दिनांक 12 जून, 2006 के पूर्वाह्न से 20 अप्रैल, 2008 तक या आयोग की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पी. एस. वर्मा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. ए-12011/14/2006-स्था.--राष्ट्रपति, समय-समय पर यथा संशोधित बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 28(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आर. माथुरबूधम, नियमित उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) को 12 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से छह महीने की अवधि या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए नियमित पदधारी के पद ग्रहण करने या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति की अवधि से उनको निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. नायक, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2006

सं. ए-12011/13/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, डॉ. ए. के. मिश्रा, नियमित उप निदेशक (सहकारिता) को 10 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से छह महीने की अवधि या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित पदधारी की सिफारिश किए जाने या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो पूर्णतः तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में निदेशक (सहकारिता) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति की अवधि से उनको निदेशक (सहकारिता) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. नायक, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अनुपम मिश्रा, उप निदेशक, वायदा बाजार आयोग, मुंबई की वायदा बाजार आयोग, मुंबई में 12,000-16,500/- रुपए के वेतनमान में निदेशक (सुविधा, जन संपर्क, शिकायत प्रतिक्रिया/जन जागरण कार्यक्रम) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 18 मई, 2006 के पूर्वाह्न से 17 मई, 2007 तक एक वर्ष की अवधि (दूसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्रीमती रश्मी अग्रवाल, सहायक प्रोग्रामर आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, मुख्य पंजीयक (जन्म और मृत्यु) का कार्यालय, दिल्ली की वायदा बाजार आयोग, मुंबई में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (आई टी) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 28 जून, 2006 के पूर्वाह्न से 27 जून, 2007 तक एक वर्ष की अवधि (दूसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री के. जयन्त, सहायक निदेशक, वायदा बाजार आयोग, मुंबई की वायदा बाजार आयोग, मुंबई में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप निदेशक (आर्थिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 18 मई, 2006 के पूर्वाह्न से 17 मई, 2007 तक एक वर्ष की अवधि (दूसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री भरत त्रिपाठी, अपर आयकर आयुक्त, मुंबई की वायदा बाजार आयोग, मुंबई में 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में निदेशक (लेखा और वित्त) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 15 जून, 2006 के पूर्वाह्न से 14 जून, 2007 तक एक वर्ष की अवधि (दूसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री आर. धर्मराजन, सहायक निदेशक, वायदा बाजार आयोग, मुंबई की वायदा बाजार आयोग, मुंबई में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप निदेशक (आर्थिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 18 मई, 2006 के पूर्वाह्न से 17 मई, 2007 तक एक वर्ष की अवधि (दूसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री के. आर. साजी कुमार, उप विधायी परामर्शदाता, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, नई दिल्ली की वायदा बाजार आयोग, मुंबई में 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में निदेशक (विधि) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 9 जून, 2006 के पूर्वाह्न से 8 जून, 2007 तक एक वर्ष की अवधि (दूसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री एस. भट्टाचार्य, सहायक निदेशक, वायदा बाजार आयोग, मुंबई की वायदा बाजार आयोग,

मुंबई में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप निदेशक (आर्थिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 18 मई, 2006 के पूर्वाह्न से 17 मई, 2007 तक एक वर्ष की अवधि (दूसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2006

सं. ए-12011/15/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जून, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2006-सी.एस. I के अनुसरण में श्री रमेश कुमार वर्मा को 12 जुलाई, 2006 से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उपभोक्ता मामले विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर श्री रमेश कुमार वर्मा को अनिश्चित काल के लिए ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. नायक, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2006

सं. ए-38012/4/2005-एस.आर.ए.--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के (भं. व अनु.) प्रभाग के भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ में निदेशक डा. एस. के. घोष, जो समूह "क" सामान्य केन्द्रीय सेवा के हैं, अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31 मई, 2006 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. बलराम, अवर सचिव

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2006

सं. ए-12011/1/2005-स्थापना--राष्ट्रपति वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में डॉ. ए. माधवन, विकास अधिकारी को इसी संगठन में 01.08.2006 से छह माह की अवधि अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. के. सरदार, मुख्य निदेशक एवं खाद्य तेल आयुक्त

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 19 जुलाई 2006

सं. एस. एम./02/028/2002--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (नेटमो) में अनुसंधान सहायक पद धारित श्री पल्लभ

कांति चट्टोपाध्याय, सहायक प्रबंधक को दिनांक 7 जून, 2006 से अगले आदेशों तक सामान्य केन्द्रीय सेवाएं (समूह 'ख') में पदोन्नति पर 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. के. चावला, अवर सचिव

सं. एस.एम./02/028/2002.--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (नेटमो) में अनुसंधान वरिष्ठ सहायक (प्रोसेस) का पद धारण कर रहे श्री गौतम चौधरी, सहायक प्रबंधक को दिनांक 7 जून, 2006 से अगले आदेशों तक सामान्य केन्द्रीय सेवाएं (समूह 'ख') में पदोन्नति पर 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. के. चावला, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जुलाई 2006

सं. एम.ओ.ई.एस./एम.ई./01/001//2005-एम. I--राष्ट्रपति, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अपर महानिदेशक श्री बी.लाल को एफ आर 49 के अंतर्गत स्वीकार्य अतिरिक्त पारिश्रमिक सहित भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम-विज्ञान महानिदेशक के पद (वेतनमान: 24,050-650-26,000 रु.) का सम्पूर्ण अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति 1 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से चार माह की अवधि या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक होगी।

एम.एल. शर्मा, उप सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. ए. 32013/12/2005-स्थापना-I.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की समूह "क" और "ख" (समावेशित) की अधिकारी सुश्री अनीता गुलाटी को 30 जून, 2006 (अपराह्न) से तदर्थ आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 10,000-15,200 रुपये के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के रूप में 31.12.2006 तक की अवधि के लिए अथवा इन पदों के लिए नियमित आधार पर भरे जाने की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड पर उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने का अधिकार अथवा उस ग्रेड में वरिष्ठता का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

पी.जी. कलाधरण, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. ए. 12025/42/2004-सी.एच.एस-I.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. लखविन्दर कौर को 24 मई, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त

करते हैं। डा. लखविन्दर कौर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2006

सं. 38016/8/2005-स्थापना-III.--स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उप-निदेशक, श्री जे.एन. घोष, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर, 30.06.2006 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति हो गये हैं।

पी.जी. कलाधरण, अवर सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. ए. 32014/3/2004-स्थापना-I.--श्री रामपाल सिंह, वैयक्तिक सहायक का नाम वर्ष 2002 के विभागीय परीक्षा कोट की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें दिनांक 6 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात करते हैं।

पी.जी. कलाधरण, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2006

सं. ए.-19013/7/2004-स्थापना-I.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2006 के का. ज्ञा. सं. 5/3/2004-ई.ओ. (एमएम-I) के अनुसरण में श्री के.घनावेल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 92) को उनके पांच वर्षीय कार्यकाल अर्थात् 27.07.2009 तक की शेष अवधि के लिए अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्यभार मुक्त होने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 1 जुलाई, 2006 से निदेशक के स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणी रामदास) के निजी सचिव के पद पर तैनात करते हैं।

पी.जी. कलाधरण, अवर सचिव

सं. ए.-32014/01/2005-स्थापना-I.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/61/2005-सी.एस.-I(सीएस-II) के दिनांक 9 जून, 2006 के तहत तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायकों को उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से केवल तदर्थ आधार पर शुरू में 31.12.2006 तक की अवधि के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात करते हैं:--

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. श्री राम प्रसाद | 06.07.2006 (पूर्वाह्न) |
| 2. सुश्री प्रोमिला शर्मा | 07.07.2006 (पूर्वाह्न) |
| 3. श्री भूप सिंह | 07.07.2006 (पूर्वाह्न) |

तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:--

1. तदर्थ प्रोन्नति अनिश्चित काल तक ग्रेड में रहने या नियमित चयन सूची में सम्मिलित करने या उसी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।

2. तदर्थ नियुक्ति कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

पी.जी. कलाधरण, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 मई 2006

सं.ए. 60011/1/2005 समन्वय-II— दिनांक 2.5.2006--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) के अनुसार इस मंत्रालय की दिनांक 10.10.2005, 27.2.2006, 6.03.2006 की अधिसूचना सं. जैड 17025/15/2005-समन्वय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पदनाम के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) के अनुसार जारी की गई दिनांक 28.3.2006 और 17.4.2006 की अधिसूचना सं. ए. 60011/1/2005 समन्वय-II के लिए निम्नलिखित संशोधन जारी किए जाते हैं। कृपया निम्नलिखित प्रविष्टियां नीचे दर्शाए गए क्रमांकों की मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर सम्मिलित की जाएं:--

क्र. सं. अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष सं. और ई-मेल पता है	विषयवस्तु जिससे संबंधित है
5. श्री जे.के. त्रिखा	उप सचिव	23061669 कक्ष सं. 307-डी	स्वास्थ्य बीमे और चिकित्सीय पर्यटन और नीति
26. डॉ. एस.के. सिकंदर	सहायक आयुक्त		अनुसंधान अध्ययन व मानक (आर.एस.एस.)
32. डॉ मनोज के. नन्द कयोलियर	सहायक आयुक्त	23062930 कमरा सं.505-ए	प्रशिक्षण प्रभाग से संबंधित सभी मामले

2. डॉ. एस.के. सत्यपथी, उपायुक्त की क्रम सं. 22 पर पूरी प्रविष्टियों को हटा दिया जाए।

पी.आर.ए. नायर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2006

सं. 27-2492/2002-स्था.-I:--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप सचिव श्री ओ.पी. हिसारिया, आई.टी.एस. (91), की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि 31 मई, 2006 के पश्चात और 31 जुलाई, 2006 तक के लिए बढ़ाते हैं।

के.डी. उप्रेती, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2006

सं. 32015/2/2005-स्था.-I:--राष्ट्रपति, कृषि और सहकारिता विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री के. सत्य कुमार को उसी संवर्ग में अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के

पद पर 6,500-200-10,500/-रुपये के वेतनमान में 30 जून, 2006 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 27-2651/2006-स्था.-I:--राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में केन्द्रीय सचिवालयी सेवा (सीएसएस) के नियमित ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) श्री बी.जे. भट्टाचार्या को 4 जुलाई, 2006 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक पूर्णतया तदर्थ आधार पर सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति इस ग्रेड में अनिश्चित समय के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में इनके नाम को शामिल करने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2006

सं. ए. 19012/12/2006-ई.ए. I:--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के ग्रेड IV अधिकारी, श्री राजेन्द्र कुमार को दिनांक 27 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं (आईईएस के लिए जूनियर टाइम स्केल)।

राज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. ए. 19012/13/2006-ई.ए. I:--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के एक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री आर. एन. कार को दिनांक 15 जून, 2006 के अपराह्न से 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. ए. 2-4/2003-एन.आर.एम. III:--राष्ट्रपति, अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (ए आई एस एण्ड एल यू एस) के मृदा सर्वेक्षण अधिकारी श्री कमल नयन को 31 मई, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों

तक के लिए इसी संगठन के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रोन्नति के आधार पर तथा 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी (जी सी एस समूह "क") के पद पर नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार, उप सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. ए-12022/1/2005-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.06.2006 के आदेश सं. 3/1/2006-सी.एस.-I के अनुसरण में इस मंत्रालय को स्थानान्तरित होने के परिणामस्वरूप और वाणिज्य विभाग के दिनांक 6.7.2006 के कार्यालय आदेश सं. ए-19011/11/2003-ई-1 के तहत कार्यभार मुक्त किए जाने के फलस्वरूप, श्री के. एस. साहनी, निदेशक, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को 10.7.2006 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश तक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संख्या पर लिया जाता है।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2006

सं. ए-12024/3/2005-स्थापना-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 5/8/2006-सी.एस.-II, दिनांक 31 मई, 2006 के अनुसरण में राष्ट्रपति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों को माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के संवर्ग में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में 30.6.2006 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर 31.12.2006 तक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री हेमन्त कोहली
2. श्री शिव प्रकाश गुप्ता
3. श्रीमती गुरमीत कौर

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-12024/3/2005-स्थापना-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 5/10/2006-सी.एस.-II, दिनांक 18 मई, 2006 के अनुसरण में राष्ट्रपति, कंपनी कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की श्रीमती प्रसन्ना राजन, निजी सचिव को माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के संवर्ग में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में 30.6.2006 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 जुलाई 2006

सं. 9-24/2006-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, सुश्री प्रीति नाथ, भा.आ.से. (1995) को 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 16 जून, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक उप-निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सन्तोष कुमार दरगन, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. पीएफ-522/प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री यशवंत एस. भावे, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 72), को 06 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दूरसंचार विभाग में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. एस. नेगी, उप सचिव

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. 39013/1/1998-प्रशासन-II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्द्वारा श्रीमती ए. गीता (कर्मचारी कोड सं. 3857) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक राज्य एकक बंगलौर में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 22 फरवरी, 1997 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना. II)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. ए-39013/1/2006-का. व. स्था.-I--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्द्वारा श्री रजनीश शर्मा, (कर्मचारी कोड सं. 4065) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र पंजाब राज्य एकक, चंडीगढ़ में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 मई, 1997 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

दिनांक 19 जुलाई 2006

सं. ए-39013/1/2006-का. व. स्था.-I--राष्ट्रपति एतद्द्वारा श्री एस. डी. दानी, कर्मचारी कोड सं. 2989, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र,

निटपू, नागपुर में वैज्ञानिक-‘सी’ के पद से त्यागपत्र दिनांक 1 जून, 2004 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. 2(8)/2002-कार्मिक-I--इस विभाग की दिनांक 18.08.2005 की समसंख्यक अधिसूचना के सिलसिले में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (अग्नि), श्री एम. के. जैन की प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 28.06.2006 से अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए (5वाँ वर्ष) और आगे बढ़ाई जाती है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. 2(1)/2006-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने श्री जैन्द्र सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आंध्र प्रदेश : 1972) को दिनांक 17 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से 26,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 अप्रैल 2006

सं. 9-14/2001-एसपीजी-I--महानिदेशक (डाक) सहर्ष डाक सेवा समूह “ख” के निम्नलिखित अधिकारियों को एफ.आर. 22 की सेना डाक सेवा के खण्ड-II के अनुसरण में प्रतिनियुक्ति पर (7,500-250-12,000/- रुपए) उनके कनिष्ठ के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

क्रम	अधिकारी का नाम	कनिष्ठ अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सं.		
1	2	3
1.	मेजर जे. एच. धमगए	21.11.2002
2.	मेजर डी. सोमसुन्दरम	15.09.2003
3.	मेजर वाई. एन. मोहन	22.05.2004
4.	मेजर जगदीश बाबू	05.07.2004
5.	मेजर कुलदीप सिंह	11.11.2004
6.	मेजर जी. पट्टयाप्पन	20.04.2005
7.	लेफ्टि. कर्नल के. नारायणन	03.06.2005
8.	मेजर आर. राजाराम	25.02.2005
9.	मेजर कमल सिंह	07.11.2005

1	2	3
10.	मेजर एस. एस. शर्मा	05.10.2005
11.	मेजर एम. आर. शर्मा	05.10.2005
12.	मेजर एन. जी. नायर	05.10.2005
13.	लेफ्टि. कर्नल आर. एस. परमशिवन	18.11.2005
14.	मेजर डी. जयराज	07.10.2005

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 18 अप्रैल 2006

सं. 1-57/2005-एसपीजी-I--डा. एस. पी. सेठ, आई.ए.एस. (बी एच-75) ने दिनांक 17 अप्रैल 2006 को 18,400-22,400/- रु. के वेतनमान में डाक विभाग में संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 26 अप्रैल 2006

सं. 1-23/2004-एसपीजी (पार्ट-II) I--श्री एस. पी. सिंह (भारतीय डाक सेवा-1970), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्किल, पटना अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.04.2006 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2006

विषय: सामान्य सिविल सेवा समूह ‘ख’ में सहायक निदेशक (भर्ती) के पद पर पदोन्नति एवं तैनाती।

सं. 9-2/2005-एसपीजी I--महानिदेशक (डाक) सहर्ष सामान्य सिविल सेवा समूह ‘ख’ में निम्नलिखित कर्मचारी को सहायक निदेशक (भर्ती) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में प्रभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेशों तक के लिए पदोन्नत करते हैं:--

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	वह सर्किल जहां फिलहाल कार्य करते हैं	वह सर्किल जहां पदोन्नति के बाद तैनात किए गए हैं	टिप्पणी के साथ पदोन्नति की तारीख
----------	-----------------	--------------------------------------	---	----------------------------------

सर्व/श्री

- श्री राधानाथ सारेन (अ.ज.जा.) पश्चिम बंगाल अधिकारी को श्री आर.एम. नन्दनवार की दिनांक 30.04.2006 को सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली रिक्ति पर पदोन्नत किया गया है।

विभाग में सामान्य सिविल सेवा समूह 'ख' में सहायक निदेशक (भर्ती) के 4 (चार) संस्थीकृत पद हैं। यह पद रोटेशन आधार पर भरा जाता है और उस सर्किल में स्थानांतरित हो जाता है जिससे कि प्रोन्नत अधिकारी सम्बद्ध है जैसाकि इस निदेशालय के पत्र सं. 31-23/91-पीई. II दिनांक 21.09.2001 में स्पष्ट किया गया है। संबंधित सर्किल में पदधारी की सेवानिवृत्ति होने पर यह पद समाप्त हो जाता है।

2. सतर्कता/अनुशासनिक मामला, यदि को हो

इस कार्यालय के ज्ञापन सं. 25-19/88-एस पी जी दिनांक 13.10.92 के साथ परिचालित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 22022/4/91-स्था. (ए) दिनांक 14.9.92 में उल्लिखित किस्म का कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कर्मचारी के खिलाफ लंबित है, तो उसे इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना तैनाती के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। वे कर्मचारी जिनके विरुद्ध कोई दण्ड प्रवर्तित है, उन्हें दण्ड की मियाद के समाप्त होने से पूर्व पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तत्काल भेजी जाए।

3. वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

अधिकारी यदि एफ आर-22 (1) (क) (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तारीख चुनने के लिए विकल्प देना चाहते हैं, तो उन्हें पदोन्नति की तारीख से एस माह के अंदर विकल्प देना होगा।

4. संगत कार्य-भार ग्रहण रिपोर्ट कृपया इस कार्यालय को यथासमय भेज दी जाए।

बी. पी. पंत,
सहायक महानिदेशक (एस.जी.पी.)

दिनांक 7 जुलाई 2006

विषय:- सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', वेतनमान 6,500-200-10,500/- रु. में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति एवं तैनाती।

सं. 12-9/2005-एसपीजी। महानिदेशक डाक सहर्ष निम्नलिखित हिन्दी अनुवादक ग्रेड-I को सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' में सहायक निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में प्रभार ग्रहण करने की तारीख से एवं अगले आदेशों तक के लिए पदोन्नत करते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वह सर्किल जहां फिलहाल कार्य करते हैं	वह सर्किल जहां पदोन्नति के बाद तैनात किए गए हैं
----------	----------------	--------------------------------------	---

सर्व/श्री

1.	श्री के. चेंगलराजू	तमिलनाडु सर्किल	छत्तीसगढ़ सर्किल
2.	एस.पी. मौर्य	उत्तर प्रदेश सर्किल	उत्तर प्रदेश सर्किल
3.	डा. (श्रीमती) के. दीपा	कर्नाटक सर्किल	आन्ध्र प्रदेश सर्किल

2. सतर्कता/अनुशासनिक मामला, यदि कोई हो

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 22022/4/91-स्था. (ए) दिनांक 14.9.92 जिसे इस कार्यालय के ज्ञापन सं. 25-19/88-एस पी जी दिनांक 13.10.92 के तहत परिचालित किया गया था, में उल्लिखित किस्म का कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कर्मचारी के खिलाफ लंबित है, तो उसे इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना तैनाती के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई दण्ड प्रवर्तित है, तो दण्ड की मियाद के समाप्त होने से पूर्व उसे पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तत्काल भेजी जाए।

3. वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

अधिकारी यदि एफ आर-22 (1) (क) (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तारीख चुनने के लिए विकल्प देना चाहते हैं, तो उन्हें पदोन्नति की तारीख से एक माह के अंदर विकल्प देना होगा।

4. संगत कार्य-भार ग्रहण रिपोर्ट कृपया इस कार्यालय को यथासमय भेज दी जाए।

बी.पी. पंत,
सहायक महानिदेशक (एस.जी.पी.)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 जुलाई 2006

सं. 2-3/2005-प्रशा.--राष्ट्रपति, सहर्ष वाणिज्य विभाग (सप्लाई डिवीजन) तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के नियमित सहायक सर्वश्री बी.पी. गुलाटी और श्री जी. के. मुखर्जी का नाम, वर्ष 2003 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में शामिल होने के उपरान्त, उन्हें 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर डाक विभाग के संवर्ग में उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

नाम	डाक विभाग के संवर्ग में नियुक्ति की तारीख
श्री बी. पी. गुलाटी	11.07.2006
श्री जी. के. मुखर्जी	13.07.2006

जी.पी. पिल्लै,
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

दिनांक 21 जुलाई 2006

सं. 2-3/2005-प्रशा.--राष्ट्रपति, सहर्ष अनुभाग अधिकारी ग्रेड की संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2004 के परिणाम आने पर, संस्कृति मंत्रालय (माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा संवर्ग) के नियमित सहायक, श्री डी.के. झा को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर डाक विभाग संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 20.07.2006 (पूर्वा.) से नियुक्त करते हैं।

जी.पी. पिल्लै,
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सं. 2-3/2005-प्रशा.--राष्ट्रपति, सहर्ष विद्युत मंत्रालय के संवर्ग में नियमित सहायक श्री रविकांत का नाम, वर्ष 2003 की अनुभाग अधिकारी

ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में शामिल होने के उपरान्त उन्हें 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर डाक विभाग संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 20.07.2006 (अप.) से नियुक्त करते हैं।

जी.पी. पिल्लै,

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2006

सं. ईआरबी-1/2006/3/6--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिकीय सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2004 (ग्रेड 'बी'/ग्रेड-I) के परिणामों के आधार पर श्री देवेन्द्र कुमार, सहायक, रेलवे बोर्ड को 1.6.06 के पूर्वाह्न से 6,500-10,500/- रु. (आरएसआरपी) के वेतनमान में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर बी एस एस) के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम.के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2005/3/6--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से 6,500-10,500/- रु. (आरएसआरपी) के वेतनमान में तदर्थ आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है:--

अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री/श्री/कु.	
1. ओ.पी. अरोड़ा	22.5.2006
2. आर.के. मेहता	15.5.2006

एम.के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 24 जुलाई 2006

सं. ई आरबी-1/2005/2/26--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर बी एस एस) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव/उप निदेशक-वेतनमान 10,000-15,200/- रु.) के रूप में पदोन्नत किया जाता है:--

क्रम	नाम	नियुक्ति की तारीख
सं.		
1	2	3
	सर्वश्री/श्री/कु.	
1.	मनोज कुमार	21.04.2006
2.	सुश्री शकुंतला गुप्ता	21.04.2006
3.	एस. बैनर्जी	28.04.2006
4.	एम.पी. तनेजा	31.03.2006

1	2	3
	सर्वश्री/श्री/कु.	
5.	रणधीर सिंह	21.04.2006
6.	सुश्री रजनी चड्ढा	31.03.2006
7.	डी. जोसफ	07.07.2006
8.	आर. पी. जोशी	07.07.2006
9.	के.एस. तिरिया	21.04.2006
10.	डेविड डेमारी	21.04.2006

एम.के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2006

सं. 2003/स्था.(राज.भ.)1/5/1--राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्रम	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सं.		
	सर्वश्री/श्री/कु.	
1.	अलोक तिवारी	01.09.2003
2.	परिणय गुप्ता	01.09.2003
3.	उदय कुमार	04.09.2003
4.	रजनीश सिंह	01.09.2003
5.	दयानन्द साहु	06.10.2003

ममता कण्डवाल,
उप निदेशक, स्था. (जीआर) रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2006

सं. ए-12023/1/2004-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री वी. प्रभाकरन को माननीय मंत्री (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग) के सहायक निजी सचिव के पद पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में सह-अवसानी आधार पर दिनांक 25.04.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवा लेना चाहें अथवा अपना पद छोड़ें, जो भी सबसे पहले हो, नियुक्त करते हैं।

डी. प्रवीन, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2005-ई-I--राष्ट्रपति, श्री अनूप चोपड़ा, कनिष्ठ अन्वेषक जो कि इस समय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर आर्थिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, को इसी मंत्रालय में तुरंत प्रभाव से 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर आर्थिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. प्रवीन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2006

सं. ए-32013/5/2004-स्था.-II--राष्ट्रपति, श्री कमलेश कुमार की पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग में मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 26.07.2006 से और छः माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

बी.एन. मिश्रा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. 32/2006 फा.सं 5/19/2005-प्रशा.दो.--राष्ट्रपति, श्रीमती अनीता कुमारी जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के डाक विभाग संवर्ग में नियमित वैयक्तिक सहायक हैं, को 18 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर.सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 33/2006 फा.सं 4/6/2005-प्रशा.दो.--राष्ट्रपति, श्री सभापति राम जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 18 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर.सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2006

सं. 34/2006 फा.सं 4/6/2005-प्रशा.दो.--राष्ट्रपति, श्री वीरेन्द्र अरोड़ा, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 20 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर.सी. अरोड़ा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. 7/14/2003-सीजीडब्ल्यूबी.--राष्ट्रपति, श्री ए. जयचन्द्रन को 11.4.2005 के पूर्वाह्न से 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय

भूमि जल बोर्ड में अस्थाई आधार पर सहायक अधिशासी अभियन्ता (ग्रुप-क) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वे उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे जाने पर अपने विवेकानुसार बढ़ा सकते हैं।

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

सं. 7/2/2004-सीजीडब्ल्यूबी.--राष्ट्रपति, श्री ए. मोहन राव को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में सहायक कार्यपालक इंजीनियर के रूप में 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में 30.1.2006 से नियुक्त करते हैं।

वह अपने कार्यग्रहण की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. 7/2/2006-सीजीडब्ल्यूबी.--राष्ट्रपति, श्री बलबीर कुमार, सहायक अधिशासी अभियन्ता को 8.5.2006 के पूर्वाह्न से 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पदोन्नति पर अधिशासी अभियन्ता (समूह 'क') के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

सं. 7/8/2006-सीजीडब्ल्यूबी.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में निम्नलिखित सहायक अधिशासी अभियन्ता को उनके सामने दर्शाई गई तिथियों से 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति पर अधिशासी अभियन्ता (समूह 'क') के पद पर नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री इंदर मोहन	21.2.2006 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एच.के. दास	27.2.2006 (पूर्वाह्न)

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. के-11011/9/2006-डीडी/ए.--राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार पाण्डेय, आई ए एण्ड ए एस (94) को पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो उप सचिव के स्तर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 14th July 2006

No. F.15/28/2004/GN-5687/AN-I.—Consequent upon the sad demise of Shri Murari J. Bissa on 3rd July, 2006, who was appointed as Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Shri Ratilal Kalidas Varma) on co-terminus basis, his services are terminated with effect from 3rd July, 2006.

J. P. SHARMA, Jt. Secy.

New Delhi-110001, The 25th July 2006

No. 4/(ii)/RCC/04.—Shri Sartaj Singh Chhatwal, Member, Lok Sabha has been nominated on 21st July, 2006 to serve as a Member of the Parliamentary Committee to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to the General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance vis-a-vis General Finance, in the vacancy caused by the resignation of Shri Babu Lal Marandi, MP from Lok Sabha on 22nd May, 2006.

O. P. SHOKEEN, Under Secy.

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

New Delhi-110003, the 24th July 2006

No. 14/2/NCST/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri K. K. Gupta, IFOs (HP : 71) as Secretary in the National Commission for Scheduled Tribes in the rank and pay of Additional Secretary to the Govt. of India w.e.f. 1-7-2006.

K. N. SINGH, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 28th June 2006

No. 10/2/1/2005-V.—In supersession of Department of Space Notification of even number dated September 05, 2005, the following officers in the Department of Space are designated as the Assistant Public Information Officer in respect of the Department of Space :—

Sl. No. of the Department	Name & Address	Name, Designation & address, Telephone/ Fax No. E-mail id of the APIO
1	2	3
1.	Vikram Sarabhai Space Centre ISRO P. O. Thiruvananthapuram Pin-695022	Shri K. B. Sanjayan Scientist/Engineer-SE, TDAD Tel : 0471-2564818 Fax : 0471-2564134 E-mail : kb_sanjayan@vssc.org
	ISRO Inertial Systems Unit Vattiyoorakavu P. O. Thiruvananthapuram Pin-695022	

1	2	3
2.	Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala P. O. Thiruvananthapuram, Pin-695022.	Smt. A. G. Saraswathy Amma Sr. Administrative Officer Tel : 0471-2567599/2567299 Fax : 0471-2567966 E-mail : ag_saraswathyamma@lpssc.gov.in
3.	Satish Dhawan Space Centre, SHAR Sriharikota Range, P. O.-524124 Nellore District Andhra Pradesh.	Shri C. Ravindranath Publicity & Publication Officer & Head, Library & Documentation Facility Tel : 08623-245183 Fax : 08623-245056 E-mail : library@shar.gov.in
4.	Space Application Centre Ambawadi Vistar P. O. Jodhpur Tekra, Ahmedabad-380015.	Shri K. M. Sasidharan, Sr. Administrative Officer, Tel : 079-26912021 Fax : 079-26915801 E-mail : sasi@sac.isro.gov.in
	Developmental and Educational Communication Unit, Ambawadi Vistar P. O., Jodhpur Tekra, Ahmedabad-380015.	
5.	ISRO Satellite Centre P.B. No. 1795, Airport Road, Vimanapura Post, Bangalore-560017.	Shri A. N. Narayan Head, Personnel & General Admn. Tel : 080-25205285 Fax : 080-25084103 E-mail : narayan@isac.gov.in
	Laboratory for Electro-Optics Systems, I Phase, I Cross, Peenya Industrial Estate, Bangalore-560058.	
6.	Master Control Facility Department of Space, P.B. No. 66, Salagame Road, Hassan-573201.	Shri S. N. Ramakrishna Sr. Administrative Officer Tel : 08172-239020 Fax : 08172-239025 E-mail : snr_mcf@yahoo.com
7.	ISRO Telemetry Tracking and Command Network Station, Plot No. 12 & 13, 3rd Main, 2nd Phase, Peenya Industrial Estate, Bangalore-560058.	Shri K. G. Padmanabhan Sr. Administrative Officer, Tel : 080-28094525/28376381 (O) Fax : 080-28094032 E-mail : padmanabhan@istrac.gov.in
8.	Dept. of Space Secretariat ISRO Headquarters, Civil Engineering Division, Antariksh Bhavan, NEW BEL Road, Bangalore-560094.	Shri B. R. Guruprasad, PRO, P&PR Unit, Tel : 080-22172295 Fax : 080-23412253 E-mail : gurubr.isro.gov.in
9.	National Remote Sensing Agency, Balanagar, Hyderabad-500037.	Shri K. Yagnaraman, Scientist 'SF', Manager, Budget Management Tel : 040-23884014 Fax : 040-23884013 E-mail : yagnaraman_k@nrsa.gov.in
10.	Physical Research Laboratory Narrangapura, Ahmedabad-380009.	Ms. V. Leela Iyer, Assistant Administrative Officer, Tel : 079-26314205 Fax : 079-26314900 E-mail : leela@prl.ernet.in

1	2	3
11. National Atmospheric Research Laboratory, Department of Space, Post Box No. 123, Tirupati-517502	Shri V. Sekaran Administrative Officer, Tel : 08585-272020/222450 Fax : 08585-272018/272021 E-mail : admin-narl@narl.gov.in	
12. North Eastern Space Applications Centre, Department of Space, Umiam-793103, Meghalaya.	Shri Bijoy Krishna Handique Scientist/Engineer 'SC', Tel. 0364-2570137/2570769 Fax : 0364-2570139 E-mail : bkhandique@Rediffmail.com	
13. Semiconductor Complex Limited, Sector 72, SAS Nagar-460071, Near Chandigarh, Punjab.	Shri Vivek Trehan Company Secretary, Tel : 0172-2237401-410 Fax : 0172-2236378/2236885 E-mail : trehan@scichd.co.in	

B. S. ANANTHA RAMU, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 20th June 2006

No. A-12025/01/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint the following officers as Research Officers in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-, on purely ad-hoc deputation basis, for a period of one year with effect from the dates mentioned against each, or till the post(s) is/are filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest :—

S. No.	Name	Date of Appointment
1.	Ms. Deepa N. Mothghare, Economic Officer, Regional Evaluation Office, Programme Evaluation Organisation, Mumbai.	12-06-2006 (FN)
2.	Dr. S. K. Gupta, Assistant Director-II, (Economic Investigation), Development Commissioner (Small Scale Industries).	12-06-2006 (AN)

R. K. PARMAR, Under Secy.

The 27th June 2006

No. A-12025/1/2006-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Dubey, Statistical Investigator Grade IV of C.S.O., Ministry of Statistics and Programme Implementation as Economic Officer in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- in the Planning Commission on deputation basis w.e.f. 27-06-2006 (FN) for a period of one year or until further orders, whichever being earlier.

R. K. PARMAR, Under Secy.

New Delhi, the 13th July 2006

No. A-12022/3/2005-Admn.IV.—The President is pleased to appoint Shri N. C. Samal, Economic Officer, Project Evaluation Office, Bhubaneswar to the post of Research Officer, a cadre post belonging to the Indian Economic Service; Group 'A' (Gazetted) in the Project Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation, Planning Commission at Bhubaneswar in the scale of pay Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, with effect from forenoon of 28th June, 2006 on the terms and conditions contained in this Commission's Office Memorandum of even number dated 26th June, 2006.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 21st July 2006

No. F.6(1551)/92-Admn.I.—Consequent on his selection for appointment in the State Govt. of Meghalaya on deputation basis for a period of one year, Shri W. Synrem, NFSG officer of IES and Director, Planning Commission is relieved from the Planning Commission w.e.f. 21-07-2006 (AN) to join the Govt. of Meghalaya.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 6th July 2006

No. 12016/7/2004-SSS.—The Competent Authority is pleased to appoint the following departmental candidates as Statistical Investigator Grade-II (in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/- under Rule 9 of the Subordinate Statistical Service (Group B, Gazetted) Rules-2002 :—

Sl. No.	Employee code	Name	Date of Joining
1	2	3	4
		Shri/Smt.	
1.	1723	G. B. Gajbhiya	17-06-2005
2.	1740	J. L. Khumbhkar	24-06-2005
3.	1931	S. K. Chaturvedi	11-07-2005
4.	2061	B. R. Gedam	20-05-2006
5.	2721	R. G. Meena	01-07-2005
6.	2766	Birender Singh	20-06-2005
7.	2787	Prabh Hanu Gajbhiye	12-09-2005
8.	2788	S. M. Thomke	28-06-2005
9.	2789	G. D. Nayyar	29-07-2005
10.	2790	K. T. Vankar	20-06-2005
11.	2791	B. K. Shukhiabaidya	24-06-2005

1	2	3	4
12.	2792	Karan Singh	01-07-2005
13.	2793	Virendra Singh	01-07-2005
14.	2794	Nil Kamal Sarkar	10-06-2005
15.	2795	Srinarayan Rabidas	20-06-2005
16.	2796	Harendra Nath Das	09-06-2005
17.	2797	Sanatan Thakuria	09-06-2005
18.	2799	P. S. Mauriya	13-06-2005
19.	2800	Daya Ram	17-10-2005
20.	2801	Dawa Tshering Bhutia	15-06-2005
21.	2802	Tar Tshering Lepcha	16-06-2005
22.	2803	Benudhar Narjary	12-12-2005
23.	2804	M. Q. Khan	11-07-2005
24.	2805	Bhimeshwar T. Rao	22-09-2005
25.	2806	T. Radhakrishnan	20-12-2005
26.	2807	K. V. Prabhakaran	19-09-2005
27.	2808	G. C. Shah	13-10-2005
28.	2809	A. V. Kakhandiki	17-10-2005
29.	2810	P. M. Udankar	13-10-2005
30.	2811	Sovendra Bhowmik	15-07-2005
31.	2813	Lala Jugal Prasad Ray	11-07-2005
32.	2814	Sukant Kumar Jena	13-07-2005
33.	2815	Azad Singh	01-06-2005
34.	2816	P. K. Hooda	01-06-2005
35.	2817	Naresh Kumar	24-06-2005
36.	2818	Sivaramakrishnan R.	16-06-2005
37.	2819	K. K. Ramachandran	09-01-2006
38.	2820	Sukumar Mishra	31-03-2006
39.	2821	U. Shankar Chakraborty	15-07-2005
40.	2822	A. T. Desai	01-09-2005
41.	2823	Angad G. Surwase	29-09-2005
42.	2825	N.S. Md. F. Abdul Sathar	17-06-2005
43.	2826	G. S. Bisht	01-07-2005
44.	2827	S. R. Sachan	15-07-2005
45.	2828	S. C. Tripathi	29-09-2005
46.	2829	A. R. Limbad	17-06-2005
47.	2830	C. D. Yadav	05-10-2005
48.	2831	N. C. Baidya	27-06-2005

1	2	3	4
49.	2833	Mrs. Reeta Kalita	07-06-2005
50.	2834	Mrs. S. Purakaystha	06-10-2005
51.	2847	Kusum Kr. Baruah	11-08-2005
52.	2848	Sudhendu Kumar Saha	01-07-2005
53.	2849	Ranjit Kumar Das	01-06-2005
54.	2850	Jagbir Singh	01-07-2005
55.	2851	Devasahyam B.	11-07-2005
56.	2852	M. M. Daddikoppa	01-06-2005
57.	2853	S. D. Meena	05-10-2005
58.	2854	D. R. Rajwadi	19-07-2005
59.	2855	B. Karibasappa	01-06-2005
60.	2857	S. G. Meena	11-10-2005
61.	2859	Bhoraj Amrut Deshpandey	11-07-2005
62.	2884	D. V. Hanumantha Rayappa	01-06-2005

A. K. SAXENA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 29th June 2006

No. A-38012/2/05-Admn. I (L.D.).—On attaining the age of superannuation, Shri N. K. Ambastha, Deputy Legislative Counsel (Grade III of the Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2006.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

The 13th July 2006

No. A-12025(i)/3/2004-Admn. I (L.D.).—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri K. Sreemannarayana, a regular Public Prosecutor in the Office of the CBI, ACB, Bangalore to officiate as Assistant Legislative Council (Grade IV of Indian Legal Service) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 10th July, 2006 and until further orders.

2. Shri K. Sreemannarayana will be on probation for a period of two years with effect from 10th July, 2006.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 6th July 2006

No. A-32014/02/2006-Adm. IV(LA).—Consequent upon his nomination on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination-2004 vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/3/2006.CS-I dated 05-06-2006, the President is pleased to appoint Shri Kaikam Dounzel, (Rank No. 326) Assistant in CSS Cadre of the Ministry of Agro and Rural Industries, (Small Scale Industries) as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) with effect from the forenoon of 26th June, 2006, by including him in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2004.

V. G. MANGAL, Under Secy.

No. A-32014/02/2006-Adm. IV(LA).—Consequent upon his nomination on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination-2004 vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/3/2006.CS-I dated 05-06-2006, the President is pleased to appoint Shri Kishore Kumar, (Rank No. 189) Assistant in CSS Cadre of the Ministry of Telecommunication as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) with effect from the forenoon of 29th June, 2006, by including him in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2004.

V. G. MANGAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 18th July 2006

No. K-11019/3/2006. US.I.—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Vishwanath Gopal Palshikar, seniormost Judge of the Bombay High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 19th July, 2006 consequent upon the retirement of Shri Justice K. R. Vyas, Chief Justice of the Bombay High Court.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 20th July 2006

No. 14016/23/2004-UTS-II.—Under Clause (c) of sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed Inspector Kapoor Singh (D-I/607) of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands,

Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with effect from 21st September 2005, the date of promotion of his immediate junior, Smt. Sushma Sodhi.

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 10th July 2006

No. D-III/460/CF-53/2004.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Pradeep Khemka as Honorary Consul of the Federative Republic of Brazil in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Pradeep Khemka comprises the States of West Bengal, Assam, Tripura and Meghalaya.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

The 12th July 2006

No. D-III/460/CF-7/2006.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Manop Mekprayoonthong as Consul General of the Royal Thai Government in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Manop Mekprayoonthong comprises the States of Andhra Pradesh, Bihar, Orissa, West Bengal and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

The 13th July 2006

No. D-III/460/CF-17/2006.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Ajit Singh as Consul General of the Republic of Singapore Government in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Ajit Singh comprises the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Pondicherry Union Territory.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 5th July 2006

INCOME TAX ESTABLISHMENTS

No. 11 of 2006 (F. No. A-39011/1/2005-Ad. VI).—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Randeep. DIRS(P) from Indian Revenue Service (IT) w.e.f. 13-12-2005.

RAHUL KASHYAP, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 11th July 2006

No. A-12011/03/2006-Admn.II.—In pursuance of O.M. No. 32014/2/2005-CAS dated 15-06-2006 & 27-06-2006 of the Department of expenditure, the President is pleased to appoint the following Officials as Section Officer's of CSS in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on the basis of the result of the Combined Limited Departmental Competitive Exam, 2004 with effect from the date as indicated against their names :—

Sl. No.	Name of the Officials	Rank No.	Date of Joining
1.	Shri S. R. Raja	166	28-06-2006 (FN)
2.	Ms. Leaticia Gomes	214	30-06-2006 (FN)
3.	Shri Vijay Kumar (SC)	327	03-07-2006 (AN)

NEELAM VOHRA, Under Secy.

No. A.12011/09/2006-Admn.II.—In pursuance of Department of Expenditure (CAS)' O.M. No. 12026/2/2006-CAS dated 30.06.2006, the President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) of Finance Cadre, to the grade of Stenographer Grade A&B (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on adhoc basis w.e.f. 30.06.2006(FN) and upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier:—

1. Shri Anil Kumar Misra
2. Smt. Neeraja Jayaraman
3. Smt. Sarla Ajbani
4. Shri Yogesh Kumar

2. The adhoc appointments of the above Stenographers Grade 'C' as Stenographer Grade 'A&B' (merged) (designated as PS) will be subject to the following terms and conditions:—

- a. The adhoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (merged) (P.S.) of CSSS;
- b. Adhoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 13th July 2006

CORRIGENDUM

No. A. 12011/2/2006-Admn.II.—The scale of pay mentioned in the last line of para 1 of this Department's Notification of even number dated the 30th June, 2006 regarding appointment of Dr. Anu Agarwal, IAS (NL:2001) as OSD and Additional Private Secretary (Under Secretary level) to Minister of State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) (Shri P.K. Bansal) may be read as "Rs. 10650-325-15850" instead of "Rs. 10000-325-15200".

2. The other terms and conditions remain unchanged.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 14th July 2006

No. A. 19011/8/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar, IAS (NL:92), Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Director in the same Department as a measure personal to him with effect from the forenoon of 5th July 2006 for the balance period of his tenure up to 29.05.2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

No. A. 19011/16/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Dipak Kumar Singh, IAS (BH:92), Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Director in the same Department as a measure personal to him with effect from the forenoon of 5th July 2006 for the balance period of his tenure up to 17.10.2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 17th July 2006

No. A. 19012/7/2006-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Shri V. Lakhanpal (IES:83), a Non Functional Selection Grade (NFSG) level officer of IES, as Director (IES) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 with effect from the afternoon of 30th June, 2006 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 18th July 2006

No. A. 19012/8/2006-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Smt. Sheela Prasad (IES:83), a Non Functional Selection Grade (NFSG) level officer of IES, as Additional Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 with effect from the afternoon of 30th June, 2006 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 10th July 2006

No. A-15012/1/2005-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Kiranlal Pannalal Kotecha, Joint District Judge, Aurangabad, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai, for a period of five years with effect from 12th June, 2006 (FN) or till he attains the age of 62 years, or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 20th July 2006

No. 18/4/2004-DRT—The services of Shri Ravi Kumar Mathur, RHJS, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Delhi, on deputation, are placed back at the disposal of Rajasthan High Court, with immediate effect.

A. THOMAS, Under Secy.

The 21st July 2006

CORRIGENDUM

No. 18/4/2004-DRT—In the Notification No. 18/4/2004-DRT dated 20th July, 2006 in respect of Shri Ravi Kumar Mathur, RHJS, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Delhi, the word 'deputation' in the second line may be read as 'tenure basis'.

A. THOMAS, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 20th July 2006

No. A. 12026/3/2004-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Jitendra R. Gaikwad, Section Officer (ad hoc) of CSS to the grade of Section Officer on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the forenoon of 11th July, 2006.

2. Shri Jitendra R. Gaikwad shall be on 'trial' for a period of two years from 11th July, 2006, as laid down in the CSS Rules.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF DISINVESTMENT)

New Delhi-110003, the 20th July 2006

No. 9/5/2006-Admn.—In pursuance of O.M.No.18/8/2006-EO (MM-I) dated the 15th June, 2006 of the Department of Personnel and Training, the President is pleased to appoint Ms. Parama Sen, IA & AS (94), as Deputy Secretary in the Department of Disinvestment in

the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, with effect from the forenoon of 18th July, 2006 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

S.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 4th July 2006

No. 21/2006(A-19011/9/2006-E.I.):—The President is pleased to appoint Shri I.C.P. Keshari, IAS (MP:88), presently Director in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce as Private Secretary to the Minister of Commerce & Industry (Shri Kamal Nath) in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce at the level of Director for a period of five years w.e.f. 4th July, 2006 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest. The period of five years as Private Secretary to the Minister of Commerce & Industry is covered under the combined tenure of seven years, as admissible to the Private Secretary to the Minister. He counts his central deputation tenure with effect from 30.03.2006.

ANURAG SAXENA, Director

No. 22/2006 (A-32012/1/2004-E.I.):—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/2/2006-CS.I dated the 29th June, 2006, the President is pleased to appoint Shri D. Vijayan Pillai, Under Secretary of Central Secretariat Service (CSS) to Selection Grade (Deputy Secretary) on ad hoc basis in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from forenoon of 3rd July, 2006

2. The ad-hoc appointment of the above Officer is subject to the following:—

- I. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- II. Ad-hoc appointment may be terminated at any time without giving any reason therefor.

ANURAG SAXENA, Director

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 11th May 2006

No. A-19011/608/2001-E.I.—Consequent on completion of his extended Central tenure, Shri Umesh Kumar, IAS(RJ:83), relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the afternoon of 11th May, 2006.

Shri Umesh Kumar, Joint Secretary, is granted Earned Leave for the period from 12.05.2006 to 31.05.2006 (20 days). The services of Shri Umesh Kumar are placed at the disposal of his parent cadre, i.e., the Government of Rajasthan, on expiry of the Earned Leave.

J. J. KAUR, Under Secy.

The 15th May 2006

No. A-12022/02/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Gopal Krishna, IAS (WB:83) as Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 15th May, 2006, until further orders.

J. J. KAUR, Under Secy.

The 19th June 2006

No. A-45011-2-2006-E.I.—The President is pleased to appoint the following Grade 'C' Stenographers of CSSS cadre of Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry) as Private Secretaries (Grade 'A&B' merged) in the same cadre on purely ad hoc basis for the period shown against each or until further orders whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Period	
		From	To
	S/Shri		
1.	Smt. Rama Venkataraman	27.06.2006	31.12.2006
2.	Rakesh	—do—	—do—
3.	Chanchal Ghosh	02.07.2006	—do—
4.	B. Jayakumar	04.07.2006	—do—
5.	Lekh Raj	27.06.2006	—do—

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (merged) PS of CSSS and the adhoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor, which is further subject to the conditions laid down in DOPT's O.M. No. 5/8/2006-CS.II dated 31st May 2006.

J. J. KAUR, Under Secy.

The 30th June 2006

No. A-19012/909/93-E.I.—The President is pleased to permit Shri O. P. Sharma, a regular Section Officer in the Central Secretariat Service Cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, to retire from Government service, with effect

from the afternoon of 30th June, 2006, on his attaining the age of superannuation.

J. J. KAUR, Under Secy.

The 10th July 2006

No. A-22012/1/2005-E.I.—The President is pleased to appoint following Principal Private Secretaries of Central Secretariat Stenographers Service as Senior Principal Private Secretaries in the CSSS cadre of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- on an ad-hoc basis, with effect from 01.07.2006 to 31.12.2006 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest:—

1. Shri L. N. Bajaj
2. Shri Rattan Singh
3. Shri Shiv Shankar

2. The promotion of the above officers to the grade of Senior Principal Private Secretary is purely on adhoc basis and shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Senior Principal Private Secretary of CSSS.

J. J. KAUR, Under Secy.

The 13th July 2006

No. A-12023/7/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Krishan Lal, Senior Translator (Official Language) of Central Secretariat Official Language Services as Assistant Director (Official Language) on adhoc basis in the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry with effect from 1st June, 2006, for six months or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

The promotion of the Officer to the post of Assistant Director (Official Language) is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right upon the Officer to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the post of Assistant Director (Official Language).

J. J. KAUR, Under Secy.

New Delhi, the 6th July 2006

No. 8(7)2005-IPR-I-(IPAB).—The President is pleased to appoint Ms. S. Usha as Technical Member in the Intellectual Property Appellate Board, Chennai with effect from the forenoon 16th June, 2006 for a period of five years or till Ms. S. Usha attains the age of 62 years, or until further orders, whichever is earlier.

2. The salaries and allowances payable to Ms. S. Usha as Technical Member in the Intellectual Property Appellate

Board and the conditions of service by which she will be governed, shall be in accordance with the provisions of the "Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003" as amended from time to time.

M. S. DHAKAD, Director

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 7th July 2006.

No. A-19011/14/2005-Estt.—The President is pleased to further extend the adhoc promotion of Shri S.K. Dang as Senior Principal Private Secretary borne on the Cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 12,000—16500/- on adhoc basis upto 31.12.2006 or till regular Sr. PPSs become available or until further orders, whichever is earlier. This appointment is in terms of Department of Personnel & Training's O.M.No.5/20/2005-CS-II dated the 19th June, 2006.

2. The appointment of Shri S.K. Dang is being made purely on adhoc basis and that adhoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. Principal Private Secretary of CSSS.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

The 14th July 2006

No. A-12011/11/2006-Estt.—In terms of the Department of Personnel & Training's OM No. 5/8/2006-CS.II dated 31.05.2006, the President is pleased to appoint Shri Bhoj Singh, Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre, borne on the cadre of Department of Telecommunications as Private Secretary on adhoc basis for a period upto 31.12.2006 in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the afternoon of 30th June 2006.

2. The above appointment is purely on adhoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

No. A-12011/11/2006-Estt.—In terms of the Department of Personnel & Training's OM No. 5/8/2006-CS.II dated 31.05.2006, the President is pleased to appoint Shri PIS Maniktala, Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre, borne on the cadre of Ministry of Information and Broadcasting as Private Secretary on adhoc basis for a period upto 31.12.2006 in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 30th June 2006.

2. The above appointment is purely on adhoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 6th July 2006

No. A-12011/7/2004-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri Manik Mukherjee, Assistant Director (Cost) as Deputy Director (Cost Evaluation) in the Pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on Central Deputation basis for a period of 3 years in the Office of Fertilizer Industry Coordination Committee, Department of Fertilizers, New Delhi w.e.f. forenoon of 5.7.2006 until further orders.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

No. A-32011/2/2006-HR-II.—Consequent on nomination made by DOPT vide their OM No. 5/21/2005-CS.II dated 22.05.2006, Shri Sudhir Suri working in DOPT has been appointed as Principal Private Secretary on the combined cadre of Department of Fertilizers and Department of Chemicals & Petrochemicals on adhoc basis in the pay scale of Rs. 10,000—15200/- w.e.f. the forenoon of 03.07.2006.

2. Shri Sudhir Suri is transferred to Department of Chemicals & Petrochemicals for posting with Office of NPPA.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 21st July 2006

No. A-32015/1/98-Admn.—In pursuance of DOP&T's OM No. 5/8/2006-CS-II dated 31.05.2006, the President is pleased to appoint Smt. Anjana Kalra, a substantive Stenographer Grade 'C' (Personal Assistant) of CSSS cadre of the Ministry of Information & Broadcasting to the Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (designated as Private Secretary) of the CSSS cadre of the Ministry of Coal, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 19th July, 2006 upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is being made purely on adhoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS. The Government reserves the right to terminate the above adhoc appointment at any point of time without giving any reason therefor.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

New Delhi, the 24th July 2006

No.12/17/2003-ASO.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar, IAS (HY : 72), as Special Secretary in

the Ministry of Coal in the scale of pay of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from 24th July, 2006 (FN), by temporarily upgrading the post of Additional Secretary held by him, for a period of three months or until further orders, whichever is earlier.

H. C. AGRAWAL, Director

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 10th July 2006

No. 2(12)/2002-Estt.—On his being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2003, the President is pleased to include Shri S. B. Tiwari, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Home Affairs and working in the Prime Minister's Office on an ad hoc basis as Section Officer in the above mentioned select list w.e.f. 5.7.2006 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

BABOO RAM, Under Secy.

The 14th July 2006

No. 2(12)/2002-Estt.—On his being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2003, the President is pleased to include Shri. S.B. Tiwari, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Home Affairs and working in the Prime Minister's Office on an ad hoc basis as Section Officer in the above mentioned select list w.e.f. 6.7.2006 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

BABOO RAM, Under Secy.

No. 5(7)/2005-Estt.—On having been nominated by the Department of Economic Affairs for his appointment as Additional Development Commissioner in the office of the Development Commissioner (SSI), Shri. P. K. Padhy, IES (1975), Economic Adviser in the Ministry of Steel is hereby relieved of his duties with effect from the afternoon of the 14th July, 2006. His services will accordingly stand placed at the disposal of the office of the DC(SSI), New Delhi from the same date.

BABOO RAM, Under Secy.

The 17th July 2006

No. 5(8)/2001-Estt.—On completion of his deputation, Shri Deepak Anurag, IA&AS (1988), Director Ministry of Steel is hereby relieved of his duties w.e.f. the forenoon of 17.07.2006. His services will accordingly stand replaced at the disposal of the office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi from the same date.

BABOO RAM, Under Secy.

No. 5(15)/2006-Estt.—On being nominated by the Department of Economic Affairs, the President is pleased to appoint Smt. Chandralekha Malviya, IES as Economic Adviser in the Ministry of Steel with effect from the afternoon of the 17th July, 2006 and until further orders.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 27th June 2006

No. A-42011/(1)/2004-Estt(Pt).—The President is pleased to appoint Shri. S.V. Ramana Murthy, ISS (85) as Director in the National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS), under the Ministry of Small Scale Industries, by redesignating/upgrading the post of Deputy Secretary presently held by him in the NCEUS, as a measure personal to him, with effect from the afternoon of 12th June, 2006 to 20th April, 2008 or till the term of the Commission, or until further orders, whichever event takes place earlier.

P. S. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 17th July 2006

No. A-12011/14/2006-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 28(1) of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 as amended from time to time, the President is pleased to promote Shri. R. Mathurbootham, a regular Deputy Director (Legal Metrology), as Director (Legal Metrology) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of 12th July, 2006 for a period of six months or till regular incumbent recommended by the UPSC joins or until further orders, whichever is the earliest.

2. The period of ad-hoc appointment would not confer upon him any right or claim for regular appointment, seniority etc. in the Grade of Director (Legal Metrology).

S. K. NAYAK, Under Secy.

The 19th July 2006

No. A-12011/13/2006-Estt.—The President is pleased to promote Dr. A. K. Misra, a regular Deputy Director (Cooperation), as Director (Cooperation) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of 10th July, 2006 for a period of six months or till regular incumbent recommended by the UPSC joins or until further orders, whichever is the earliest.

2. The period of ad-hoc appointment would not confer upon him any right or claim for regular appointment, seniority etc. in the Grade of Director (Cooperation).

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-11011/03/2004-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri. Anupam Mishra, Deputy Director in the Office of the Forward Market Commission, Mumbai, as Director (Facilitation, Public Relation Grievances Redressal/Public Awareness Programme) in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- in the Forward Markets Commission, Mumbai for a further period of one year (second year) with effect from the forenoon of the 18th May, 2006 to 17th May, 2007 or till further orders, whichever event occurs earlier.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-11011/03/2004-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Smt. Rashmi Aggarwal, Assistant Programmer in the Directorate of Economics & Statistics and Office of the Chief Registrar (Birth & Death), Delhi as Assistant Director (I.T.) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Forward Markets Commission, Mumbai for a further period of one year (second year) with effect from the forenoon of the 28th June, 2006 to 27th June, 2007 or till further orders, whichever event occurs earlier.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-11011/03/2004-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri. K. Jayanth, Assistant Director in the Office of the Forward Markets Commission, Mumbai, as Deputy Director (Economics) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Forward Markets Commission, Mumbai for a further period of one year (second year) with effect from the forenoon of the 18th May, 2006 to 17th May, 2007 or till further orders, whichever event occurs earlier.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-11011/03/2004-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri. Bharat Tripathi, Additional Commissioner of Income Tax, Mumbai, as Director (Accounts & Finance) in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Forward Markets Commission, Mumbai, for a further period of one year (second year) with effect from the forenoon of the 15th June, 2006 to 14th June, 2007 or till further orders, whichever event occurs earlier.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-11011/03/2004-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri. R. Dharmarajan, Assistant Director in the Office of the Forward Markets Commission, Mumbai, as Deputy Director (Economics) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- in the Forward Markets Commission, Mumbai for a further period of one year

(second year) with effect from the forenoon of the 18th May, 2006 to 17th May, 2007 or till further orders, whichever event occurs earlier.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-11011/03/2004-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri. K.R. Saji Kumar, Deputy Legislative Counsel in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, New Delhi, as Director (Law) in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Forward Markets Commission, Mumbai, for a further period of one year (second year) with effect from the forenoon of the 9th June, 2006 to 8th June, 2007 or till further orders, whichever event occurs earlier.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-11011/03/2004-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri. S. Bhattacharyya, Assistant Director in the Office of the Forward Markets Commission, Mumbai, as Deputy Director (Economics) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- in the Forward Markets Commission, Mumbai for a further period of one year (second year) with effect from the forenoon of the 18th May, 2006 to 17th May, 2007 or till further orders, whichever event occurs earlier.

S. K. NAYAK, Under Secy.

The 20th July 2006

No. A-12011/15/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2006-C.S.I. dated 29th June, 2006, the President is pleased to appoint Shri. Ramesh Kumar Verma as Deputy Secretary (Selection Grade) of CSS on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Department of Consumer Affairs with effect from the afternoon of 12th July, 2006 and until further orders.

2. The ad-hoc promotion of Shri. Ramesh Kumar Verma shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

S. K. NAYAK, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 13th June 2006

No. A-38012/4/2005-SRA.—On attaining the age of superannuation, Dr. S.K. Ghosh, Director, Indian Grain Storage, Management & Research Institute, Hapur of the (S&R) Division of the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution who belongs to Group 'A' General Central

Services, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st May, 2006.

A. BALARAM, Under Secy.

(DIRECTORATE OF VANASPATI, VEGETABLE OILS
AND FATS)

New Delhi-110003, the 14th July 2006

No. A-12011/1/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. A. Madhavan, Development Officer in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats as Assistant Director on ad hoc basis in the same organisation in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. 01-08-2006 for a period of six months or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

P. K. SARDAR
Chief Director & Edible
Oils Commissioner

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi, the 19th July 2006

No. SM/02/028/2002.—The President is pleased to appoint Shri Pallab Kanti Chattopadhyay holding the post of Senior Technical Assistant (Process), National Atlas & Thematic Mapping Organisation (NATMO) to the post of Assistant Manager in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- General Central Service (Group 'B') promotion w.e.f. 7th June, 2006 until further orders.

L. K. Chawla, Under Secy.

No. SM/02/028/2002.—The President is pleased to appoint Shri Gautam Chaudhuri holding the post of Senior Technical Assistant (Process), National Atlas & Thematic Mapping Organisation (NATMO) to the post of Assistant Manager in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- General Central Service (Group 'B') promotion w.e.f. 7th June, 2006 until further orders.

L.K. Chawla, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 21st July 2006

No. MoES/ME/01/001/2005-M.—The President is pleased to appoint Shri B. Lal, Additional Director General of Meteorology, India Meteorological Department to hold full additional charge of the post of Director General of Meteorology (Pay Scale: Rs. 24050-650-26000/-) in India Meteorological Department with additional remuneration admissible under FR 49, for a period of four months with effect from the forenoon 1st July, 2006 or until further orders whichever is earlier.

M. L. SHARMA, Dy Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 11th July 2006

No. A. 32013/12/2005-Estt.I.—The President is pleased to appoint Ms. Anita Gulati, an officer of the Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS, as Principal Private Secretary in the scale of Rs. 10000—15200/- in the Ministry of Health and Family Welfare on ad-hoc basis with effect from 30th June, 2006 (A.N.) for a period upto 31.12.2006 or till the posts are filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment of the above officer to the grade of Principal Private Secretary will not bestow any right on her to continue in the grade of PPS indefinitely or for seniority in that grade.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 18th July 2006

No. A. 12025/42/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Lakhwinder Kaur to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 24th May 2005 until further orders. Dr. Lakhwinder Kaur is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 29th June 2006

No. A. 38016/8/2005/Estt.III.—On attaining the age of superannuation, Sh. J. N. Ghosh, Deputy Director in the Department of Health & Family Welfare shall retire from Govt. service w.e.f. 30.6.2006 (A.N.).

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 12th July 2006

No. A-32014/3/2004-E.I.—Consequent upon inclusion of his name of the Select List for the year 2002 against Departmental Examination Quota, the President is pleased to appoint Sh. Ram Pal Singh, PA, as Section Officer in the Ministry of Health & Family Welfare on regular basis with effect from the forenoon of 6th July, 2006.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 13th July 2006

No. A-19013/7/2004-E.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 5/3/2004-EO(MM-I) dated 5th July, 2006 the President is pleased to appoint

Shri K. Dhanavel, IAS (TN:92) as Private Secretary to the Minister of Health & Family Welfare (Dr. Anbumani Ramadoss) at the level of Director w.e.f. 1st July, 2006 for the balance period of his five years tenure i.e. up to 27.07.2009 or till he ceases to function as PS to the Minister of Health & Family Welfare or until further orders, whichever is earlier.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

No. A-32014/01/2005-Estt.I.—Consequent upon their promotion to the post of Section Officer of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 21/61/2005-CS.I(CS.II) dt. 09th June, 2006 the President is pleased to appoint the following Assistants of the CSS, as Section Officers in the Department of Health & FW, purely on ad-hoc basis w.e.f. the date show against each initially for the period upto 31.12.2006.

1. Sh. Ram Prasad 06.07.2006(FN)
2. Ms. Promila Sharma 07.07.2006(FN)
3. Sh. Bhup Singh 07.07.2006(FN)

The ad-hoc promotion is subject to the following conditions:—

1. The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the same grade.
2. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

New Delhi-110011, the 2nd May 2006

No. A-60011/1/2005-Coordn. II dated 2.5.2006.—In terms of section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following amendments are issued to this Ministry's earlier notification No. Z. 17025/15/2005-Coordination dated 10.10.2005, 27.02.2006, 06.03.2006 and No. A-60011/1/2005/Coordn.II 28.3.2006 and 17.4.2006 issued in terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005 in connection with designation of Central Public Information Officer for Department of Health & FW. The following entries may kindly be incorporated in place of existing entries in respect of Sl. Nos. shown below:—

S. No.	Name of Officer	Designation	Telephone No. & E-Mail address	Subject matter with which concerned
1	2	3	4	5
5.	Sh. J.K. Trikha	Dy. Secy.	23061669 Room No. 307-D	All matters relating to Health insurance and Medical Tourism and policy

1	2	3	4	5
26.	Dr. S.K. Sikdar	Asstt. Commissioner		Research Studies & Standards (RSS)
32.	Dr. Manoj K. Nandkeolina	Asstt. Commissioner	23062930 Room No. 505-A	All matters relating to Training Division

2. Entire entries at Sl. No. 22 in respect of Dr. S.K. Sathpathy, Dy. Commissioner may kindly be deleted.

P. R. A. NAIR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 5th July 2006

No. 27-2492/2002-E-I.—The President is pleased to extend the Central Deputation tenure of Shri O.P. Hisaria, ITS (91), Deputy Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation for a further period beyond 31st May, 2006 and upto 31st July, 2006.

K. D. UPRETI, Dy. Secy.

New Delhi, the 7th July 2006

No. 32015/2/2005-E-I.—The President is pleased to appoint Shri K. Satya Kumar, a permanent officer of Asssitants' Grade of the CSS cadre of Department of Agriculture & Cooperation, as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- purely on ad-hoc basis in the same cadre with effect from afternoon of 30th June, 2006 until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of Section Officer.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 27-2651/2006-E-I.—The President is pleased to appoint Shri B. J. Bhattacharya, a regular Grade-I Officer (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS), to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) purely on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 4th July, 2006, until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion of his name in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. The ad-hoc appointment

may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 7th July 2006

No. A-19012/12/2006-EA.—The President is pleased to appoint Shri Rajinder Kumar, a Grade-IV officer of Indian Economic Services (IES) to the post of Research Officer in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation with effect from the forenoon of 27th January, 2006, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (Junior Time Scale for IES).

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 17th July 2006

No. A-19012/13/2006-EA.—The President is pleased to appoint Shri R.N. Kar, a Junior Administrative Grade (JAG) officer of Indian Economic Service (IES) to the post of Joint Director in the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), Department of Agriculture and Cooperation, with effect from the afternoon of the 15th June, 2006, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-.

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 18th July 2006

No. 2-4-/2003-NRM.III—The President is pleased to appoint Shri Kamal Nayan, Soil Survey Officer, All India Soil & Land Use Survey (AIS&LUS) to the post of Senior Soil Survey Officer (G.C.S. Group 'A') in the scale of Rs. 12,000-375-16,500, on promotion basis, at the Head Quarters, New Delhi of the same organization with effect from the forenoon of 31st May, 2006, until further orders.

VIJAY KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 12th July 2006

No. A-12022/1/2005-Estt.—Consequent upon his transfer to this Ministry in pursuance of the Department of Personnel and Training's Order No. 3/1/2006-CS-I dated 30.06.2006 and on being relieved by the Department of Commerce vide their Office Order No. A-19011/11/2003-E-I dated 06.07.2006, Shri K.S. Sawhney, CSS, Director is taken on strength of Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. the forenoon of 10.7.2006, until further orders.

R.A. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 7th July 2006

No. 12024/3/2005-E-III—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS-II dated 31st May 2006, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries belonging to CSSS cadre of the Ministry of Information & Broadcasting as Private Secretary in the cadre of Department of Secondary & Higher Education in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on adhoc basis w.e.f. 30.6.2006 (forenoon) upto 31.12.2006:

1. Sh. Hemant Kohli
2. Sh. Shiva Prakash Gupta
3. Smt. Gurmeet Kaur

S.N. GUPTA, Under Secy.

No. 12024/3/2005 E-III—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/10/2005-CS-II dated 18th May 2006, the President is pleased to appoint Smt. Prasanna Rajan, PS belonging to CSSS cadre of the Ministry of Company Affairs as Private Secretary in the cadre of Department of Secondary & Higher Education in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis w.e.f. 30.6.2006 (forenoon).

S. N. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-110 001, the 13th July 2006

No. 4-24/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Ms Preeti Nath, IES (1995) as Deputy Director in the Ministry of Women and Child Development in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. the forenoon of 16th June, 2006 until further orders.

S. K. DARGAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110 001, the 6th July 2006

No. PF-522/Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Yashwant S. Bhawe, IAS (MH:72), as Special Secretary, Department of Telecommunications with effect from the forenoon of 6th July, 2006 for a period of three months or until further orders, whichever is earlier.

L. S. NEGI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 17th July 2006

No. A-39013/1/1998-Adm.II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Smt. A. Geetha (Emp. Code No. 3857), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre—Karnataka State Unit, Bangalore, with effect from the afternoon of 22nd February, 1997 and she is relieved of her duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Dir. (P&E-II)

New Delhi-110003, the 18th July 2006

No. A-39013/1/2006-P&E-I—The Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Rajneesh Sharma, Emp. Code-4065, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade "SB", NIC-Punjab State Unit, Chandigarh with effect from the afternoon of 30th May 1997 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

The 19th July 2006

No. A-39013/1/2006-P&E-I—The President is pleased to accept the resignation of Shri S.D. Dani, Emp. Code-2989, from the post of Scientist "C", NIC-NITPU, Nagpur with effect from the afternoon of 1st June 2004 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

New Delhi-110003, the 12th July 2006

No. 2(8)/2002-P.I—In continuation of this Department's Notification of even number dated 18.08.2005, the term of deputation of Shri M.K. Jain, Section Officer (Fire) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Information Technology is extended for a further period of one year (5th year) with effect from 28.06.2006 or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

The 18th July 2006

No. 2(1)/2006-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Jainder Singh, IAS (AP:1972) as Secretary to the Government of India, Department of Information Technology in the scale of pay of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from the forenoon of July 17, 2006.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 17th April 2006

No. 9-14/2001-SPG—The Director General (Posts) is pleased to grant proforma promotion in P.S. Group 'B' grade to the following officers (Rs. 7,500-250-12,000) on deputation in terms of clause II of APS of FR-22 with effect from the date of joining of their immediate juniors as mentioned against each :—

Sl. No.	Name of officer	Date of joining of junior officer
1	2	3
1.	Major JH Dhamgaye	21.11.02
2.	Major D Somasundaram	15.09.03
3.	Major YN Mohan	22.05.04
4.	Major Jagdish Babu	05.07.04
5.	Major Kuldeep Singh	11.11.04
6.	Major G Patchyappan	20.04.05
7.	Lt Col K Narayanan	03.06.05
8.	Major R Rajaram	25.02.05
9.	Major Kamal Singh	07.11.05
10.	Major SS Sharma	05.10.05
11.	Major MR Sharma	05.10.05
12.	Major NG Nair	05.10.05
13.	Lt Col RS Paramasivan	18.11.05
14.	Major D Jayaraj	07.10.05

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

The 18th April 2006

No. 1-57/2005-PSG—Dr. S.P. Seth, IAS (BH:75), has assumed charge of the post of Joint Secretary and Financial Adviser in the Department of Posts in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- with effect from the forenoon of 17th April 2006.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

The 26th April 2006

No. 1-23/2004-SPG (Pt. II)—Shri S.P. Singh (IPoS-1970), Chief Postmaster General, Bihar Circle, Patna is retiring on superannuation from Government service w.e.f. 30.4.2006 (A/N).

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

The 1st May 2006

Subject : Promotion and Posting to the post of Assistant Director (Recruitment) GCS Group 'B'.

No. 9-2/2005-SPG—The Director General (Posts) is pleased to promote the following official on regular basis in the grade of Assistant Director (Recrt.) in General Central Services Group 'B' in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date of assumption of charge until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Circle where working at present	Circle to which posted on promotion	Date of promotion with remarks
1.	Shri Radhanath Saren (ST)	West Bengal	West Bengal	The Officer is promoted in the vacancy arising from the retirement of Sh. R.M. Nandanwar on 30.04.2006

There are 4 (four) sanctioned posts of Assistant Director (Recrt.), GCS Group 'B' in the Department. These posts are to be filled up on rotation basis and will get transferred to the circle to which the promoted officer belongs as clarified in this Directorate letter No. 31-23/91-PE.II dated 21.09.2001, the posts ceases to operate on retirement of the incumbent of the post in the concerned circle.

2. VIGILANCE/DISCIPLINARY CASE, IF ANY

In case any vigilance/disciplinary case, of the type referred to in O.M. No. 22011/4/91-Estt(A) dated 14.09.1992 from DOP&T circulated vide this office Memo No. 25-19/88-SPG dated 13.10.92 is pending against the official, he should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. In case any punishment is current against the official, he should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

3. OPTION FOR FIXATION OF PAY

If the officer wishes to give option for choosing date of fixation of pay under FR 22(1)(a)(1), he should do so within one month from the date of promotion.

4. The charge reports may please be sent to this office in due course.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

The 7th July 2006

Subject : Promotion and Posting to the post of Assistant Director (OL) GCS Group 'B' post in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/-

No. 12-9/2004-SPG—The Director General (Posts) is pleased to promote the following Hindi Translators Grade I on regular basis in the grade of Assistant Director (OL) in General Central Services Group 'B' in the scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the date of assumption of charge and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officers	Circle where working at present	Circle to which posted on promotion
	(S/Shri)		
1.	K. Chengalraju	Tamil Nadu Circle	Chhattisgarh Circle
2.	S.P. Maurya	U.P. Circle	U.P. Circle
3.	Dr. (Smt.) K. Deepa	Karnataka Circle	A.P. Circle

2. VIGILANCE/DISCIPLINARY CASE, IF ANY

In case any vigilance/disciplinary case, of the type referred to in O.M. No. 22011/4/91-Estt(A) dated 14.09.1992 from DOP&T circulated vide this office Memo No. 25-19/88-SPG dated 13.10.92 is pending against the official, he/She should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. In case any punishment is current against the official, he/She should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

3. OPTION FOR FIXATION OF PAY

If the officer wishes to give option for choosing date of fixation of pay under FR 22(1)(a)(1), He/She should do so within one month from the date of promotion.

4. The charge reports may please be sent to this office in due course.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

New Delhi-110001, the 19th July 2006

No. 2-3/2005-Admn.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 (Seniority Quota), the President is pleased to appoint S/Shri V.P. Gulati and G.K. Mukherjee, regular Assistants of Department of Commerce (Supply Division) and Ministry of Youth Affairs & Sports respectively as Section Officers in the cadre of the Department of Posts, in the scale of pay of

Rs. 6500-200-10500/- on regular basis with effect from the dates shown against their names :—

Name	Date of appointment in the cadre of Department of Posts
Shri V.P. Gulati	11.07.2006
Shri G.K. Mukherjee	13.07.2006

G. P. PILLAI, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

The 21st July 2006

No. 2-3/2005-Admn.—On the results of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2004 for Section Officers' Grade, the President is pleased to appoint Shri D.K. Jha a regular Assistant in the Ministry of Culture (Cadre of Secondary and Higher Education) as Section Officer in the cadre of the Department of Posts in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from 20.07.2006 (F/N).

G. P. PILLAI, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

No. 2-3/2005-Admn.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 (Seniority Quota), the President is pleased to appoint Shri Ravi Kant, a regular Assistant in the cadre of Ministry of Power, as Section Officer in the cadre of the Department of Posts in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on regular basis with effect from 20.07.2006 (A/N).

G. P. PILLAI, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 20th July 2006

No. ERB-1/2006/3/6—On the results of Section Officers'/ Stenographers' (Grade 'B'/Grade-I) Limited Departmental Competitive Examination, 2004, held by Union Public Service Commission, Shri Devendra Kumar, Assistant, Railway Board, has been appointed as Section Officer of Railway Board Secretariat Service (RBSS) in the scale of Rs. 6500—10500 (RSRP) with effect from the forenoon of 01.06.2006.

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

No. ERB-1/2006/3/6.—The following Assistants of Railway Board have been appointed as Section Officers of Railway Board Secretariat Service (RBSS), on adhoc basis, in the scale

of Rs. 6,500—10,500/- (RSRP) with effect from the forenoon of the date shown against each :—

S.No.	Name of Officer	Date of joining
	(S/Shri)	
1.	O.P. Arora	22.05.2006
2.	R.K. Mehta	15.05.2006

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

The 24th July 2006

No. ERB-1/2005/2/26.—The following Section Officers of Railway Board Secretariat Service (RBSS), have been promoted to Grade-I (Under Secretary/Deputy Director, Scale of Rs. 10,000—15,200/-) of that service on adhoc basis with effect from forenoon of the date indicated against each :—

S. No.	Name	Date of promotion
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	Manoj Kumar	21.04.2006
2.	Ms. Shakuntala Gupta	21.04.2006
3.	S. Banerjee	28.04.2006
4.	M.P. Taneja	31.03.2006
5.	Randhir Singh	21.04.2006
6.	Rajni Chadha	31.03.2006
7.	D. Joseph	07.07.2006
8.	R.P. Joshi	07.07.2006
9.	K.S. Tiria	21.04.2006
10.	David Daimari	21.04.2006

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

New Delhi, the 24th July 2006

No. 2003/E(GR) 1/5/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each :—

S. No.	Name	Date of joining
1	2	3
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Alok Tiwari	01.09.2003
2.	Parinay Gupta	01.09.2003
3.	Uday Kumar	04.09.2003
4.	Rajnesh Singh	01.09.2003
5.	Dayanand Sahu	06.10.2003

MAMTA KANDWAL, Dy. Director, Estt. (GR),
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS**(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)**

New Delhi, the 14th July 2006

No. A-12023/3/2004-E-I.—The President is pleased to appoint Shri V. Prabhakaran, as Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister (Shipping, Road Transport & Highways) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on co-terminus basis w.e.f. 25.4.2006 (F.N.) until further orders or till the Minister desires his services or demits the office, whichever event occurs at the earliest.

D. PRAVEEN, Under Secy.

No. A-32014/1/2005-E-I.—The President is pleased to appoint Shri Anup Chopra, Junior Investigator, presently working as Economic Officer on adhoc basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways as Economic Officer on regular basis in the pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the same Ministry with immediate effect.

D. PRAVEEN, Under Secy.

New Delhi, the 19th July 2006

No. A-32013/5/2004-E-II.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri Kamlesh Kumar as Chief Engineer (Civil) in the Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways for a further period of six months with effect from 26.07.2006, or until further orders, whichever is earlier.

B. N. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 18th July 2006

No. 32/2006. F.No. 5/19/2005.—The President is pleased to appoint Smt. Anita Kumari, a regular Stenographer Grade 'C' of the Department of Posts Cadre of CSSS, to the grade of Stenographer Grade 'A&B' (merged) (Private Secretary) of the Ministry of Power Cadre of CSSS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis, with effect from the forenoon of the 18th July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 33/2006. F. No. 4/6/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Sabhapati Ram, a regular Assistant of the Ministry of Health & Family Welfare Cadre of CSS to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of the 18th July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 20th July 2006

No. 34/2006. F. No. 4/6/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Virander Arora, a regular Assistant of the Ministry of Labour & Employment Cadre of CSS to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of the 20th July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 17th July 2006

No. 7/14/2003-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri A. Jayachandran to the post of Asstt. Executive Engineer (Group-A) in the Central Ground Water Board in the scale of pay of Rs. 8000—13,500/- on temporary basis with effect from the forenoon of 11.04.2005.

He will be on probation for a period of two years with effect from the date of his joining the post which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

No. 7/2/2004-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri A. Mohan Rao as Asstt. Executive Engineer (Group-A) in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- in the Central Ground Water Board on temporary basis with effect from 30.01.2006.

He will be on probation for a period of two years with effect from the date of his joining the post which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

The 18th July 2006

No. 7/2/2006-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri Balbir Kumar, Asstt. Executive Engineer as Executive Engineer (Group 'A') in the Central Ground Water Board in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- by promotion with effect from the forenoon of 08-05-2006.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

No. 7/8/2006-CGWB.—The President is pleased to appoint the following Asstt. Executive Engineers as Executive Engineer (Group 'A') in the Central Ground Water Board in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-

promotion with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the officer	Date of Promotion
1.	Shri Inder Mohan	21-02-2006 (FN)
2.	Shri H. K. Das	27-02-2006 (FN)

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi-110011, the 18th July 2006

No. K-11011/9/2006-DDIA.—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar Pandey, IA&AS (94) as Chief Accounts Officer in the Delhi Development Authority, at the level of Deputy Secretary, for a period of four years, from the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

PARMJIT SINGH, Desk Officer